



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 1—मई 7, 2010 (वैशाख 11, 1932)
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1—MAY 7, 2010 (VAISAKHA 11, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 अप्रैल 2010

सं. डीपी/पर्स.-1/2010/1001/3/47/2002--गृह मंत्रालय के कार्यालय
ज्ञापन सं. I-21023/21/97-आई.पी.एस. दिनांक 06.04.2000 जो कि
भा.पु.सेवा कार्यकाल अवधि नीति के संबंध में है, के पैरा 8 के अनुसार
श्री डी. सी. जैन, भा.पु.सेवा (राजस्थान : 1991) पुलिस उपमहानिरीक्षक,
के. अ. ब्यूरो की सेवाओं को प्रत्यावर्तन पर दिनांक 31.03.2010 के
अपराह्न से राजस्थान सरकार को सौंप दिया गया है।

एस. जे. एम. गिलानी
उप-निदेशक (प्रशा.)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 अप्रैल 2010

सं. डीपी/पर्स.(एम)/2010/1065/ए-19017/11/2009--निदेशक,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो दिनांक 18.11.2009 के अपराह्न से

श्री प्रमोद सरोतिया, अपराध सहायक को कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय
अन्वेषण ब्यूरो के ग्रेड में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. सचदेव
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2010

सं. 2/25/08-प्रशासन/81770--सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय सतर्कता
आयोग एतद्वारा आयोग में निम्नलिखित निजी सहायकों को निजी सचिव
के पद पर वेतन बैंड रु. 9300--34,800/- में ग्रेड वेतन रु. 4,800/-
के साथ तदर्थ आधार पर दिनांक 26.03.2010 (पूर्वाह्न) से तीन माह
की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त
करते हैं :--

1. श्री जयंत टंडन तथा
2. श्री ए. के. मिश्रा

आर. एन. नायक
अवर सचिव (प्रशासन)

सं. 2/31/08-प्रशासन/81771--सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय सतर्कता आयोग एतद्वारा आयोग में सहायक श्रीमती आशा सक्सेना को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- में ग्रेड वेतन रु. 4,800/- के साथ, तदर्थ आधार पर दिनांक 05.04.2010 (पूर्वाह्न) से 30.05.2010 अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

आर. एन. नायक
अवर सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 अप्रैल 2010

सं. ओ.दो. 3809/09-कार्मिक (एम.ओ.ज.)--डॉ. राजा श्याम गोगोइ, चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) (इरला सं.-7981) 170 बट, केरिपु बल, को दिये गये एक माह के नोटिस की समय-सीमा दिनांक 08.3.2010 को समाप्त होने के फलस्वरूप नियुक्ति आदेश के पैरा 4(1) के साथ पठित केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली-1965 के नियम-5, उप-नियम-1 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 08.03.2010 (अपराह्न) से उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाता है। तदनुसार उन्हें उसी तिथि अर्थात् 08.03.2010 (अपराह्न) से केरिपु बल की नफरी से निकाला जाता है।

टी. चन्द्रशेखरन
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 अप्रैल 2010

सं. पी.तीन-2/2010/मंत्रा.--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने के फलस्वरूप निम्नलिखित ने सरकारी सेवा से प्रत्येक के सामने लिखे गये कार्यालय में दर्शाई गयी तिथियों को संयुक्त सहायक निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी का कार्यभार त्याग दिया है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय जहाँ कार्यभार त्याग दिया	कार्यभार त्याग करने की तिथि
1.	श्री रेवत सिंह, संयुक्त सहायक निदेशक, (इरला सं.-5765)	महानिदेशालय, के.रि.पु.बल, नई दिल्ली।	31.03.2010 (अपराह्न)
2.	श्री वक्शोष सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, (इरला सं.-6744)	महानिदेशालय, के.रि.पु.बल, नई दिल्ली।	31.03.2010 (अपराह्न)

रविन्द्र नाथ मिश्र
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 अप्रैल 2010

सं. ई-16015 (2)/32/2009/कार्मिक 1/66--राष्ट्रपति, के.औसुब के निम्नलिखित निरीक्षक (अनुसचिवीय/आशुलिपिक) व सहायक कमाण्डेंट/क.प्र.अ. (लोकल रैंक) को रु. 15,600--39,100+रु. 5,400/- ग्रेड वेतन के वेतनमान में सहायक कमाण्डेंट/जे.ए.ओ. के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया	सहायक कमाण्डेंट/जे.ए.ओ. के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
(सर्वश्री/श्रीमती)			
1.	उमेश प्रसाद श्रीवास्तव	बीएसपी, विशाखापटनम	18.01.2010 (पूर्वाह्न)
2.	सिद्धेश्वर सिंह	ईसीएल, सीतलपुर	15.01.2010 (पूर्वाह्न)
3.	गणपत लाल पटशंकर	ग्रुप मुख्यालय, पटना	15.01.2010 (पूर्वाह्न)
4.	यश करण सिंह	दक्षी मुख्यालय, चेन्नई	15.01.2010 (पूर्वाह्न)
5.	ए. के. लाहीरी	बीसीसीएल, धनबाद	23.01.2010 (पूर्वाह्न)
6.	तारा सिंह	बीएसपी, भिलाई	15.01.2010 (पूर्वाह्न)
7.	पवन कुमार धमीजा	6बी. आ.वा., देवली	15.01.2010 (पूर्वाह्न)
8.	जे. एन. दास	समूह मुख्यालय, चण्डीगढ़	16.01.2010 (पूर्वाह्न)
9.	के. एम. ननईया	एनएलसी, नेवेली	15.01.2010 (पूर्वाह्न)
10.	जी. एच. हसन खाण्डे	उ.पु. से. मुख्यालय, कोलकाता	18.01.2010 (पूर्वाह्न)
11.	तुही कान्त मण्डल	उ.क्षे. मुख्यालय, नई दिल्ली	22.02.2010 (पूर्वाह्न)
12.	द्वाराका मांझी	चैन्नई एयरपोर्ट	22.03.2010 (पूर्वाह्न)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली-110606, दिनांक 13 अप्रैल 2010

सं. 1/7/2010-प्रशा.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग के अधिकारी श्री के. सेनथिल कुमार, भा.प्र.से. (बीएच:96) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर 24.02.2010 (पूर्वाह्न) से उप सचिव के उनके वर्तमान स्तर पर 4 वर्ष की अवधि अर्थात् 23.02.2014 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक, जनगणना कार्य, बिहार के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री के. सेनथिल कुमार का मुख्यालय पटना होगा।

एस. कन्नप्पन
अवर सचिव

सं. 1/71/2009-प्रशा.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के मणिपुर संवर्ग के अधिकारी श्री वाई. थामकिशोर सिंह, भा.प्र.से. (एससीएस : एमटी : 94) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर 08.03.2010 (पूर्वाह्न) से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 31.01.2015 तक

अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उनके निदेशक के वर्तमान स्तर पर निदेशक, जनगणना कार्य, मणिपुर, इम्फाल के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री वाई. थामकिशोर सिंह का मुख्यालय मणिपुर होगा।

एस. कन्नप्पन
अवर सचिव

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110124, दिनांक 13 अप्रैल 2010

सं. 11-जी.ई.-1/13-2006--भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सेवानिवृत्त हो चुके हैं :--

सर्वश्री

1. जे. पी. रजक, अधिवार्षिकी, दिनांक 31.03.2010 (अपराह्न)
2. आर. रामानाथन, अधिवार्षिकी, दिनांक 31.03.2010 (अपराह्न)

आर. नरेश
सहा. नियंत्रक
महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2010

सं. ए: 19011/529/2010 स्था.ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री ए. एम. कांबले, वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी, को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 29.3.2010 (पूर्वाह्न) से क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

एस. दासगुप्ता
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानियंत्रक

संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 12 अप्रैल 2010

सं. 4-352/2010/स्थापना.--निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण सहर्ष इस सर्वेक्षण के मुख्यालय, कोलकाता में पदस्थ डॉ. (श्रीमती) समीरा दासगुप्ता, अनुसंधान सहयोगी (सांस्कृतिक) को सहायक मानवविज्ञानी (सांस्कृतिक), ग्रुप-बी, (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- (पूर्व संशोधित) के परिशोधित वेतन बैंड PB-2 (रु. 9,300--34,800/-) के ग्रेड वेतन रु. 4,600/- (संशोधित) के साथ उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय केन्द्र, शिलांग में दिनांक 26 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं।

डी. एन. पाण्डेय
कार्यालय अध्यक्ष

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय

फरीदाबाद-121001, दिनांक 13 अप्रैल 2010

सं. 2-12/2007-प्रशा.प्रथम--भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार निम्नलिखित अधिकारियों को 9,300--34,800/- रु. के पे-बैंड में 4,600/- रुपये ग्रेड-पे पर नियमित अस्थायी आधार पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से अगले आदेशों तक, इस निदेशालय में वनस्पति संरक्षण अधिकारी (की.वी.) (समूह "ख" राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री ब्रजेश मिश्रा	03.02.2010 (पूर्वाह्न)
2.	डॉ. अमित चौधरी	17.02.2010 (पूर्वाह्न)
3.	डॉ. डी. के. नागाराजू	24.02.2010 (पूर्वाह्न)

ए. के. चोपड़ा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 12 अप्रैल 2010

शुद्धि-पत्र

सं. पीडी/7(17)/2009/भर्ती-IV/एसओ/सी/ईटीजी/3369--क्रमांक पीडी/7(17)/2009/भर्ती-IV/एसओ/सी/ईटीजी/2474 दिनांक मार्च 8, 2010 को जारी की गयी अधिसूचना के संदर्भ में। उपर्युक्त अधिसूचना में दर्शायी गयी प्रभावी पे-बैंड को संशोधित कर रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- के बदले रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- के अनुसार पढ़ा जाए।

शैलजा प्रकाशम
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 1 अप्रैल 2010

सं. वीईसीसी/पदोन्नति (अगस्त)/2009/754--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (ई) के पद पर काम करने के लिए

1 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड + ग्रेड वेतन
1.	श्री बिबास शर्	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	रु. 15,600-39,100/- + रु. 6,600/-
2.	श्री उत्तम भूनिया	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	रु. 15,600-39,100/- + रु. 6,600/-
3.	डॉ. देबाशीष भूमिक	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	रु. 15,600-39,100/- + रु. 6,600/-

के. गोपालकृष्णन
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. बीईसीसी/पदोन्नति (अगस्त)/2009/755--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी को इसी केन्द्र पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (डी) के पद पर काम करने के लिए 1 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :--

नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड + ग्रेड वेतन
श्री विनय सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	रु. 15,600-39,100/- + रु. 5,400/-

के. गोपालकृष्णन
प्रशासनिक अधिकारी-III

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुंबई-400705, दिनांक 13 अप्रैल 2010

सं. ब्रिट/9/18/63--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड में डॉ. अशोककुमार रतनलालजी चांडक को दिनांक 18 मार्च 2010 के पूर्वाह्न से रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड तथा रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन सहित तकनीकी अधिकारी ग्रेड 'सी' के पद पर, अगले आदेशों तक, अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

ए. के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 30 मार्च 2010

सं. नाईस/काप्रभ.1/03/58/267--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र श्री एन. सीतारामुडु, निजी सचिव (असचिवालय) को रु. 4,800/-

के ग्रेड वेतन सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में अस्थायी हैसियत में दिनांक 17.03.2010 (पूर्वा.) से भावी आदेश होने तक, स्थानापन्न वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. एस. लक्ष्मण राव
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/काप्रभ.1/03/58/268--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र श्री के. बी. राम शर्मा, आशुलिपिक ग्रेड-I को रु. 4,200/- के ग्रेड वेतन सहित रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 में अस्थायी हैसियत में दिनांक 17.03.2010 (पूर्वा.) से भावी आदेश होने तक, स्थानापन्न निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. एस. लक्ष्मण राव
प्रशासनिक अधिकारी

हैदराबाद-500062, दिनांक 9 अप्रैल 2010

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-3213/3984--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री पी. वेंकटरामय्या, वैज्ञानिक अधिकारी 'डी' (वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) ने दिनांक 31.01.2010 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

एन. बी. एस. बी. प्रसाद
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-1932/3985--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री आर. सुकुमारन, वैज्ञानिक अधिकारी 'डी' (वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) ने दिनांक 28.02.2010 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

एन. बी. एस. बी. प्रसाद
सहा. कार्मिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-0611/3986--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री ये. राधा कृष्णमूर्ति, वैज्ञानिक अधिकारी 'डी' (वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) ने दिनांक 31.08.2010 (अप.) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

एन. बी. एस. बी. प्रसाद
सहा. कार्मिक अधिकारी

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कल्पावकम-603102, दिनांक 6 अप्रैल 2010

सं. इंगांपअके/ए-11013/2009-भर्ती--राष्ट्रपति महोदय,
निम्नलिखित अधिकारियों को इस विभाग के इंदिरा गांधी परमाणु

अनुसंधान केन्द्र, कल्पावकम में अस्थायी क्षमता पर अगले आदेश तक वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'सी' के पद पर प्रारंभिक वेतन रु. 21,000/- (रु. 15,600/- + 5,400/- ग्रेड वेतन) पर रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान पर उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं। अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:--

क्र. सं.	प.प.सं./अनुभाग	नाम	जन्म दिनांक	मूल वेतन + ग्रेड वेतन	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	लेखा शीर्ष
1.	10074/एफआरएफसीएफ	स/श्री/श्रीमती/कु. आशीष जैन	06.03.81	रु. 21,000/-	01.02.10	आर एंड डी
2.	10079/एसआईएमएस/एमएसजी	किशन सिंह च.	02.01.83	रु. 21,000/-	10.02.10	आर एंड डी
3.	10083/ईएसजी	मनो आर.	13.02.81	रु. 21,000/-	17.02.10	आर एंड डी
4.	10085/ईएसजी	वेंकटसुब्रमणि डी.	04.10.79	रु. 21,000/-	25.02.10	आर एंड डी
5.	10086/ईएसजी	बालकुमारन के. एस.	11.11.84	रु. 21,000/-	25.02.10	आर एंड डी
6.	10087/प्रिप/एमएमजी	महेन्द्र प्रभु एन.	04.03.80	रु. 21,000/-	02.03.10	आर एंड डी
7.	10088/एनडीईडी/एमएमजी	संगीता जे.	23.04.85	रु. 21,000/-	02.03.10	आर एंड डी
8.	10025/ईएसजी	सेंदिल कुमार एच.	15.12.84	रु. 21,000/-	22.03.10	आर एंड डी

बी. दयालन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500629, दिनांक 5 अप्रैल 2010

सं. पखनि-4/1/2009-भर्ती/703--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को पदोन्नति द्वारा प्रत्येक को उनके नाम के सामने उल्लिखित ग्रेड में (उसके नीचे वर्णित वेतन बैंड में) दर्शाई गई तारीख से आगामी आदेश होने तक इसी निदेशालय में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति का ग्रेड/वेतन बैंड	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	श्री/श्रीमती/डॉ.			
1.	सीएच. विलियम प्रसाद	वैज्ञा. अधि.-डी	वैज्ञा. अधि.-ई, वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + 7,600/- ग्रेड वेतन	01.07.2009
2.	कल्याण सिंह मीना	वैज्ञा. अधि.-सी	वैज्ञा. अधि.-डी, वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + 6,600/- ग्रेड वेतन	01.07.2009
3.	बी. उमा शंकर	वैज्ञा. अधि.-सी	-वही-	01.07.2009
4.	राजेश कुमार सिंह	वैज्ञा. अधि.-सी	-वही-	01.07.2009
5.	खेम चंद पीपल	वैज्ञा. अधि.-एसबी	वैज्ञा. अधि.-सी, वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + 5,400/- ग्रेड वेतन	01.07.2009
6.	आर. के. डुंग डुंग	वैज्ञा. अधि.-एसबी	-वही-	01.07.2009
7.	एम. श्रीनिवास रेड्डी	वैज्ञा. अधि.-एसबी	-वही-	01.07.2009
8.	कु. रीता	वैज्ञा. अधि.-एसबी	-वही-	01.07.2009
9.	बी. श्रीनिवास मूर्ती	वैज्ञा. अधि.-एसबी	-वही-	01.07.2009

बी. विजय रामि रेड्डी
प्रशासनिक अधिकारी-III

हैदराबाद-500629, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. पखनि-16/1/2002-भर्ती/खंड II/769--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री बी. अशोक कुमार, सहायक सुरक्षा अधिकारी-ए (वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-), परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को तारीख 10.03.2010 पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नागपुर में सुरक्षा अधिकारी (वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. मोहन बाबू
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 अप्रैल 2010

सं. ए-32013/4/2009-स्था.1--राष्ट्रपति जी, महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय के विमान इंजीनियरी निदेशालय में निम्नलिखित वैमानिक अधिकारियों को, 15,600--39,100/- रु. के वेतनमान में, 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन में, तदर्थ नियुक्ति को 04.05.2010 से छह माह की अवधि के लिए (04.11.2010 अपराह्न तक) या पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, और आगे बढ़ते हैं :-

1. श्रीमती विनिता जैन
2. श्री डी. एस. यादव
3. श्री एम. के. गोयल
4. श्री रामशेर सिंह

तदर्थ नियुक्ति उन्हें नियमित पदोन्नति या वरिष्ठता आदि हेतु कोई अधिकार नहीं प्रदान करती। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को बिना कोई कारण बताए या बिना किसी नोटिस आदि के उनकी तदर्थ नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार सरकार सुरक्षित रखती है।

विजय सिंह
उपनिदेशक प्रशासन

कम्पनी मामले मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओक्यागोन इन्टरनेशनल लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 6 अप्रैल 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी/दिल्ली/सैक्शन/560/2010/00040--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओक्यागोन इन्टरनेशनल लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ई. तिरकी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सराह डे एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 26 मार्च 2010

सं. आरओसी/560/8311/1914--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सराह डे एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जेवकेम हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 29 मार्च 2010

सं. आरओसी/560/23257/1919--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जेवकेम हैल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ब्रिलियन्ट कन्जुमर कम्प्यूटर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 5 अप्रैल 2010

सं. आरओसी/560/31242/2207--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ब्रिलियन्ट कन्जुमर कम्प्यूटर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नवीन पब्लिसिटी एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 5 अप्रैल 2010

सं. आरओसी/560/9143/2211--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नवीन पब्लिसिटी एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साही होम स्टडी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 6 अप्रैल 2010

सं. आरओसी/560/26334/2215--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साही होम स्टडी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जनक मोटर पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 8 अप्रैल 2010

सं. आरओसी/560/16508/2788--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जनक मोटर पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स च्वाईस सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 8 अप्रैल 2010

सं. आरओसी/560/12979/2792--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स च्वाईस सेल्स प्राइवेट

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 13 अप्रैल 2010

सं. आरओसी/जेपीआर/560/5/329--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	2078	मैसर्स महालक्ष्मी क्रिशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	2668	मैसर्स सुनिता माईन-कैम इण्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
3.	2825	मैसर्स ओम पेट्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	4248	मैसर्स प्रकाश होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	10021	मैसर्स शेयर शोपी होलिंग्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
6.	10310	मैसर्स गुप्ता फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
7.	12084	मैसर्स एस. एस. पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
8.	12087	मैसर्स बी. बी. टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
9.	12216	मैसर्स जुपिटर मेडिप्लेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
10.	12227	मैसर्स गुरुशिखर पावर कन्ट्रोलस प्राइवेट लिमिटेड
11.	12334	मैसर्स हाई-प्रोफाईल स्टील प्राइवेट लिमिटेड
12.	12413	मैसर्स लालवानी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
13.	12440	मैसर्स चौधरी लाइम्स प्राइवेट लिमिटेड
14.	12460	मैसर्स पशुपति एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
15.	12464	मैसर्स स्काईलोन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
16.	12471	मैसर्स राजरानी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
17.	12482	मैसर्स सनराइज फोरमुलेशन प्राइवेट लिमिटेड
18.	12938	मैसर्स खण्डेलवाल डाई कैम प्राइवेट लिमिटेड
19.	12949	मैसर्स जीत मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
20.	12950	मैसर्स हिमगिरी मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
21.	12951	मैसर्स वेस्टर्न स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड
22.	12953	मैसर्स मनसुख मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
23.	12954	मैसर्स प्रनव मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
24.	13501	मैसर्स जोश्या इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	14330	मैसर्स डायनेमिक एलुमिनियम प्राईवेट लिमिटेड
26.	14943	मैसर्स इडन फिनवर्थ प्राईवेट लिमिटेड
27.	15114	मैसर्स चम्बल मेडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड
28.	15182	मैसर्स जी. बी. एल. इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
29.	15278	मैसर्स हनु इनोवेटिव्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	15310	मैसर्स बेन्सा टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	16566	मैसर्स सुरतन कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	16679	मैसर्स ऑरिजनल नमकीन्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	16742	मैसर्स स्वाती किचन केयर प्राईवेट लिमिटेड
34.	16832	मैसर्स सनी सीड्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
35.	16899	मैसर्स ठण्डा ड्रिंक्स राजस्थान प्राईवेट लिमिटेड
36.	17889	मैसर्स एल. जागीरदार पैलेस होटल एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
37.	18105	मैसर्स नवकार आर्टएक्सपो प्राईवेट लिमिटेड
38.	18498	मैसर्स विकटोरिया मारबोस्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	18989	मैसर्स ईडन टूअर्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	19303	मैसर्स राजवंश क्लिनिक प्राईवेट लिमिटेड
41.	21053	मैसर्स आनन्द अग्रवाल स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	21879	मैसर्स रूकमणी बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड
43.	22287	मैसर्स ब्यूटीफूल ट्री आर्ट एण्ड क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
44.	22671	मैसर्स राजस्थान प्लाईंग एण्ड एयरक्राफ्ट्स मेन्टेनेन्स
45.	24049	मैसर्स विष्णुकृपा फूड प्राईवेट लिमिटेड
46.	26014	मैसर्स सुपर प्राईम टेक्नो एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
47.	26015	मैसर्स एसेन्ट कम्प्युटेड टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
48.	26881	मैसर्स सरोवा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग प्राईवेट लिमिटेड
49.	27781	मैसर्स रिगल स्मार्ट कन्ज्यूमर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
50.	28024	मैसर्स महाबली इन्फो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
51.	28674	मैसर्स श्री विनायक मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
52.	29378	मैसर्स रिगल स्मार्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 13 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/5/328-- कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना

दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विधित कर दी गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	001197	मैसर्स गरूड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	001301	मैसर्स राजस्थान पिगमेन्ट्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	001541	मैसर्स धनकर इलेक्ट्रिक एण्ड केबल क. प्राईवेट लिमिटेड
4.	001711	मैसर्स जैन मिनरल्स इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5.	001954	मैसर्स अरूणोदया फ़ाण्डरिज प्राईवेट लिमिटेड
6.	003261	मैसर्स सुप्रीम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
7.	003289	मैसर्स राजगढ़ सीमेन्ट उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
8.	003561	मैसर्स सूर्या सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	004278	मैसर्स गुडविल रबड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	004294	मैसर्स पिकसिटी लेजरसेट प्राईवेट लिमिटेड
11.	004850	मैसर्स बसन्त पोल्ट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड
12.	010115	मैसर्स एस आर पी फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
13.	010559	मैसर्स विनायका थर्मोटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	010661	मैसर्स श्री राधिका कॉम्पलेक्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	011442	मैसर्स सिस्टेमिक एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
16.	012009	मैसर्स ओसवाल प्लान्टेशन एण्ड डेयरी प्राईवेट लिमिटेड
17.	012047	मैसर्स दीप हाउसिंग प्राईवेट लिमिटेड
18.	012053	मैसर्स दर्शन एग्रो फोरेस्ट्री लिमिटेड
19.	012081	मैसर्स डविस मोट प्राईवेट लिमिटेड
20.	012957	मैसर्स परिनद्रा इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
21.	013139	मैसर्स गंगा यमुना सरस्वती फाईनान्स एण्ड सिक्यूरिटी लिमिटेड
22.	013647	मैसर्स मेस्ट्रो लिजिंग एण्ड फाईनज लिमिटेड
23.	013684	मैसर्स गुर देव हाउसिंग फाईनान्स लिमिटेड
24.	014032	मैसर्स सुन्दर प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड
25.	015316	मैसर्स कन्जुमर वेलफेयर क्लब प्राईवेट लिमिटेड
26.	015337	मैसर्स उरवी आर्ट क्रिएशन्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	015343	मैसर्स यमुना प्रोटेन्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	015368	मैसर्स सुविधा मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	015369	मैसर्स कोटाडवाला एग्रो कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
30.	015382	मैसर्स मरुभूमि कास्टल क्लब प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
31.	015580	मैसर्स आमू श्री सत्य साई ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	016614	मैसर्स सेलजोन बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
33.	016740	मैसर्स विशेष मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	020773	मैसर्स नुपुर गोनका एजुकेयर प्राईवेट लिमिटेड
35.	020847	मैसर्स जी. डी. गोनेका इण्डिया प्लाईग स्कूल प्राईवेट लिमिटेड
36.	020848	मैसर्स जी. डी. गोनेका कम्यूनिकेशन टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
37.	020947	मैसर्स जी. डी. गोनेका हाई टेक सिटी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
38.	020948	मैसर्स जी. डी. गोनेका होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स इण्डिया
39.	020949	मैसर्स जी. डी. गोनेका इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ एण्ड मेडिकल
40.	001802	मैसर्स खेतान बेरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	003650	मैसर्स मालसन्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	004155	मैसर्स गवरी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	004156	मैसर्स जोशी कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
44.	004157	मैसर्स कानपुर फारूखाबाद ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
45.	004168	मैसर्स कृष्णा रोडलाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	004173	मैसर्स कैमल अब्बासिक्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	004180	मैसर्स एस. पी. होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	004185	मैसर्स ललित एण्ड ललित फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	007263	मैसर्स प्रभाकर एलोज प्राईवेट लिमिटेड
50.	007693	मैसर्स आरएलएल होटल्स लिमिटेड
51.	008203	मैसर्स फाल्गुन फार्मास प्राईवेट लिमिटेड
52.	008214	मैसर्स सुचिता मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
53.	008293	मैसर्स सफ्टेन मेडिकेयर प्राईवेट लिमिटेड
54.	008884	मैसर्स प्रमेटिक मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
55.	009256	मैसर्स जयपुर मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
56.	009650	मैसर्स सकुन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	010029	मैसर्स इन शोपी कार्ड प्राईवेट लिमिटेड
58.	010054	मैसर्स सिटीजन मेटल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	010442	मैसर्स जगदम्बा होम फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
60.	010531	मैसर्स सत्यम पोलीकेम प्राईवेट लिमिटेड
61.	011015	मैसर्स गिराज कम्यूटर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
62.	011300	मैसर्स सेल्जा सिक्कूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
63.	011514	मैसर्स जैन जेहानी एण्ड खेतानी फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	012528	मैसर्स फतहपुरिया कॉलोनाइजेशन प्राईवेट लिमिटेड
65.	012891	मैसर्स शीलेश सेविंग्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	014551	मैसर्स एसकेजी फिन लोन प्राईवेट लिमिटेड
67.	015098	मैसर्स जेजेआरपी चिट फण्ड एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	015132	मैसर्स शिव एप्रोवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
69.	015134	मैसर्स के. के. एस. चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
70.	015158	मैसर्स श्री श्याम ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
71.	015302	मैसर्स हाई फाई मार्बल प्राईवेट लिमिटेड
72.	015815	मैसर्स अशावा रिक्रूटमेन्ट मैनेजमेन्ट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
73.	016271	मैसर्स पिनाकिन होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	016285	मैसर्स बंसल इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड
75.	017006	मैसर्स राग होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	017075	मैसर्स जे. आर. मोदी ज्वेल्स प्राईवेट लिमिटेड

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कंपनी अधिनियम 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जयपुर-302001, दिनांक 13 अप्रैल 2010

सं. आरओसी/जेपीआर/560/3/326--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	1044	मैसर्स श्री गणेश वूल प्रेसिंग कम्पनी लिमिटेड
2.	1459	मैसर्स एस. पी. गुप्ता एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3.	1545	मैसर्स नीलमनी सेविंग्स एण्ड जनरल फायनांस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
4.	1577	मैसर्स राजावत मिनरल्स एण्ड पेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	38.	5638	मैसर्स मंगला टायर्स एण्ड ट्रीड प्राईवेट लिमिटेड
5.	1587	मैसर्स बोर्ड्स एण्ड बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	39.	5673	मैसर्स केशव फाईबर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	1653	मैसर्स बनास ओपन शूगर फैक्ट्री प्राईवेट लिमिटेड	40.	5682	मैसर्स कुलदेवी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	3227	मैसर्स स्वॉयका सौप केमिकल्स एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड	41.	5696	मैसर्स वेलइक्यू फार्माकिन प्राईवेट लिमिटेड
8.	3556	मैसर्स आनन्द मैटल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	42.	5707	मैसर्स सुप्रीम ग्रिन्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	3572	मैसर्स अग्रसेन टेक्सटाईल्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	43.	5711	मैसर्स वर्धमान फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	3601	मैसर्स सचैती ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड	44.	5724	मैसर्स सीता ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	3628	मैसर्स ट्रांसकॉन्टीनेन्टल कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	45.	5730	मैसर्स राजहंस मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	3785	मैसर्स एस.आर.जी. कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	46.	5731	मैसर्स सुन्दरम् ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	3895	मैसर्स अम्बाजी पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड	47.	5734	मैसर्स सर्जन हाउसिंग फायनांस डेवलपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	3936	मैसर्स विधू होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	48.	5736	मैसर्स संतोष डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	4078	मैसर्स एलाइड पोलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड	49.	5746	मैसर्स निगार महल ग्रान मार्बल प्राईवेट लिमिटेड
16.	4311	मैसर्स चक्रा एलॉयस एण्ड स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	50.	5750	मैसर्स पशुपति ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	4330	मैसर्स राजस्थान एनर्जी इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	51.	5760	मैसर्स मारू वनस्पति प्राईवेट लिमिटेड
18.	4407	मैसर्स भाटी शाह मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	52.	5762	मैसर्स पूजा कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	4447	मैसर्स मरुधर टायर एण्ड थ्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड	53.	5764	मैसर्स सिंघवी फायनांस प्राईवेट लिमिटेड
20.	4502	मैसर्स गजसीर सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	54.	5767	मैसर्स एरीना लेबोरेट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
21.	4605	मैसर्स एलोरा एआरसी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	55.	5780	मैसर्स निहाल ग्रेनाइट एण्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	4879	मैसर्स राज सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	56.	5785	मैसर्स इंटर लिंक एपैरेल्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	4919	मैसर्स पिरल ऑटो इन्स्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	57.	5787	मैसर्स मैगना सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
24.	5071	मैसर्स सुनन्दा सी-फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	58.	5797	मैसर्स फ्रैण्ड्स फुटवियर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	5093	मैसर्स हरि सोल्वेक्स प्राईवेट लिमिटेड	59.	5804	मैसर्स हमदम फाउंडेशन प्राईवेट लिमिटेड
26.	5139	मैसर्स अपूर्वा टायर एण्ड थ्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड	60.	5805	मैसर्स केसी कंटेनर्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	5224	मैसर्स आर.डी. मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट	61.	5806	मैसर्स जया सिंथेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	5231	मैसर्स ग्लोरियस मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	62.	5811	मैसर्स पालदीप इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
29.	5242	मैसर्स रंजान मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड	63.	5812	मैसर्स फ्रैण्ड्स पोलट्री फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	5255	मैसर्स जैन स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड	64.	5825	मैसर्स नागथानी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	5257	मैसर्स स्काईलार्क प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	65.	5832	मैसर्स सगासजी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	5300	मैसर्स हार्ड-टेक मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड	66.	5835	मैसर्स मलावत बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	5360	मैसर्स सोमानी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	67.	5842	मैसर्स भावल लीजिंग एण्ड फायनांस लिमिटेड
34.	5367	मैसर्स जे.एस. वेजीटेबल प्राईवेट लिमिटेड	68.	5846	मैसर्स श्री स्वरूप नारायण फायनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
35.	5517	मैसर्स सुनीता मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	69.	5847	मैसर्स चन्द्राकाला मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	5586	मैसर्स पूर्णिमा मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	70.	5849	मैसर्स अलवर मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	5589	मैसर्स जेन्युन ताबाको कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	71.	5851	मैसर्स ईशान टायर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
72.	5852	मैसर्स बिलारा सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड	104.	10638	मैसर्स पूनिया एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
73.	5855	मैसर्स कृष्णा कम्यूनिकेशंस प्राईवेट लिमिटेड	105.	10737	मैसर्स हडोती टेली सिग्नल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	5858	मैसर्स लूनावत सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	106.	10783	मैसर्स राज कृष्णा फोम्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	5859	मैसर्स धनराज एडिबल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	107.	10807	मैसर्स औशियन केपिटल लिमिटेड
76.	5860	मैसर्स पूजा इलैक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	108.	10822	मैसर्स प्रिसिजन मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	5861	मैसर्स वीनस कन्फेक्शनर्स प्राईवेट लिमिटेड	109.	10912	मैसर्स शांति फिनसेक प्राईवेट लिमिटेड
78.	5865	मैसर्स गोयल ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड	110.	10940	मैसर्स शेखावत प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड
79.	5871	मैसर्स एन.बी. ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	111.	10964	मैसर्स काईनेटिक एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	5873	मैसर्स बेहरा केबल्स प्राईवेट लिमिटेड	112.	11042	मैसर्स कोनार्क कॉन्फिना प्राईवेट लिमिटेड
81.	5889	मैसर्स वीनसायिनफिन प्राईवेट लिमिटेड	113.	11047	मैसर्स फोर्ट वैली रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	5895	मैसर्स अनमोल सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	114.	11063	मैसर्स उर्वशी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	5896	मैसर्स चेतन सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड	115.	11099	मैसर्स दुलारी टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	5900	मैसर्स अर्बुदा मिनरल्स एण्ड लेबोरेटरीज़ प्राईवेट लिमिटेड	116.	11105	मैसर्स टाईमक्स लुब्रिकेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	5901	मैसर्स डायर्स प्रिंट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	117.	11115	मैसर्स वर्धमान डेयरी फील्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	5902	मैसर्स नन्द श्री डेयरी प्राईवेट लिमिटेड	118.	11150	मैसर्स जगदम्बा मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	5907	मैसर्स यूनोपेप्सी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	119.	11255	मैसर्स केओ पोलिमर्स एण्ड प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	5908	मैसर्स उदयपुर ट्रेड डेवलपमेंट एण्ड फाइनांस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	120.	11264	मैसर्स थर्स्ट क्वीनचर्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	8414	मैसर्स गोपी पोली आर्ट प्राईवेट लिमिटेड	121.	11266	मैसर्स गायत्री पेट्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड
90.	10004	मैसर्स पी.ए.वाई. एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	122.	11269	मैसर्स किंग्स सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	10005	मैसर्स ओम प्रकाश हाउसिंग डेवलपमेंट सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	123.	11275	मैसर्स राजधानी प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	10106	मैसर्स गरिमा इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	124.	11280	मैसर्स दरिया मार्केटिंग एण्ड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
93.	10223	मैसर्स रजनीगंधा प्लांटेशन रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	125.	11290	मैसर्स आस्था कारपोर सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
94.	10272	मैसर्स गोर्धन दास नरोत्तम दास बिल्डर्स एण्ड कार्गो सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	126.	11318	मैसर्स सेठी मेडीसेल्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	10292	मैसर्स ऑक्टल एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड	127.	11334	मैसर्स गीता स्टोन्स लिमिटेड
96.	10322	मैसर्स ओवरसीज़ सिक्योरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड	128.	13051	मैसर्स मेघोन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	10368	मैसर्स नसनदवाना कैपिटल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	129.	13067	मैसर्स लीशा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	10398	मैसर्स गनेशम् आभूषण कला केन्द्र लिमिटेड	130.	13115	मैसर्स छिनमस्ता मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	10410	मैसर्स गनेश फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड	131.	13120	मैसर्स विमल मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	10463	मैसर्स ईश्वर स्प्रिंकलर प्राईवेट लिमिटेड	132.	13122	मैसर्स डैजर्ट लस्ट टूल्स एण्ड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	10516	मैसर्स क्रिएटिव मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	133.	13328	मैसर्स बालाजी बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड
102.	10550	मैसर्स संजीवनी मार्बल प्राईवेट लिमिटेड	134.	13360	मैसर्स सूर्या महल पैलेस होटल्स एण्ड रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
103.	10556	मैसर्स इनोवेटिव कैपफिन प्राईवेट लिमिटेड	135.	13364	मैसर्स आनन्द फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड
			136.	13373	मैसर्स पूनिया एग्रो-फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
			137.	13405	मैसर्स ग्रीनस्यर होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
			138.	13416	मैसर्स बॉक्स-इन होटल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
139.	13434	मैसर्स राहुल प्रोटीन्स प्राईवेट लिमिटेड
140.	13531	मैसर्स पर्सेंट कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
141.	13604	मैसर्स दानटोडी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
142.	13615	मैसर्स एवरग्रीन मामों प्राईवेट लिमिटेड
143.	13682	मैसर्स राजस्थान प्योर ड्रिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
144.	13753	मैसर्स बन्सीवाला प्रोपर्टी प्राईवेट लिमिटेड

एस. पी. कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के संबंध में

जयपुर-302001, दिनांक 13 अप्रैल 2010

सं. आरओसी/जेपीआर/560/3/327--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त निम्नलिखित कम्पनियाँ प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं की गई तो कम्पनियों का नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और, उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी जाएंगी :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	000118	मैसर्स इण्डस्ट्रियल ट्रस्ट लिमिटेड
2.	000335	मैसर्स आबू रोड इलैक्ट्रीसिटी एण्ड इण्डस्ट्रीज़ कम्पनी लिमिटेड
3.	000516	मैसर्स राजपूताना स्टोर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	000547	मैसर्स श्री कृष्णा इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
5.	001045	मैसर्स संसार ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
6.	001061	मैसर्स राजस्थान इवोरी मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन प्राईवेट लिमिटेड
7.	0001212	मैसर्स माया परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	001235	मैसर्स जीवन फर्टीलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स कं. प्राईवेट लिमिटेड
9.	001264	मैसर्स एलुमिना मेटल इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
10.	001269	मैसर्स महाबानी फाईनान्स एण्ड इन्व्स्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
11.	001361	मैसर्स ब्यावर केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	001371	मैसर्स जयपुर फ़ैस एण्ड नोन फ़ैस कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
13.	001376	मैसर्स नाम मेटल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	001390	मैसर्स इसिता प्राईवेट लिमिटेड
15.	001393	मैसर्स एसआर मंगल रिफ़ैक्ट्री वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	001407	मैसर्स जयपुर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेन्ट्स एण्ड जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	001434	मैसर्स भण्डारी ऑफ़सेट प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	001454	मैसर्स लक्ष्मी ऑयल एक्सट्रैक्शन्स मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	001490	मैसर्स होटल पिंक सिटी प्राईवेट लिमिटेड
20.	001493	मैसर्स अम्बर होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	001503	मैसर्स लक्ष्मी बेनीफ़िट प्राईवेट लिमिटेड
22.	001510	मैसर्स एलाईड पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज़ एण्ड एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड
23.	001522	मैसर्स जोधपुर ऑयल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	001529	मैसर्स वर्मा सेविंग एण्ड इन्व्स्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
25.	001533	मैसर्स रेडियन्ट रबड़ प्राईवेट लिमिटेड
26.	001546	मैसर्स सिन्क्स इलैक्ट्रोनिक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
27.	001552	मैसर्स खुराना सेविंग्स एण्ड जनरल फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	001556	मैसर्स श्री गणेश बचत योजना प्राईवेट लिमिटेड
29.	001568	मैसर्स श्री पोरसेलेन प्राईवेट लिमिटेड
30.	001573	मैसर्स राजस्थान पेपर कोनेस एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	001574	मैसर्स नटराज सेविंग्स जनरल फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	001581	मैसर्स चिना स्पोकस एण्ड एलाईड प्राईवेट लिमिटेड
33.	001584	मैसर्स पिंक सिटी फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	001589	मैसर्स हीरामनी सेविंग्स एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	001596	मैसर्स राजस्थान स्ट्रॉ बोर्ड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	001609	मैसर्स बोहरा सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड
37.	001612	मैसर्स अग्रवाल पेपर एण्ड बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	001629	मैसर्स मयूर ऑफ़सेट प्रेस प्राईवेट लिमिटेड
39.	001650	मैसर्स फ्रेण्ड्स सेविंग्स चिट फण्ड एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	001702	मैसर्स राजस्थान वॉच मैन्यूफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	001704	मैसर्स राकेश सेविंग्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
42.	001706	मैसर्स बीकानेर क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. प्राईवेट लिमिटेड
43.	001708	मैसर्स अशोक कन्डक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	001710	मैसर्स अभिवेक सेविंग्स एण्ड जनरल फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	001720	मैसर्स जेम टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
46.	001736	मैसर्स अनुराग इन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
47.	001737	मैसर्स प्लास्टिक ऐज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
48.	001748	मैसर्स एडम्स फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	003057	मैसर्स कोटा स्टोन एण्ड मार्बल इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
50.	003368	मैसर्स मरूधर सिन्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	003416	मैसर्स तारामनिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
52.	003431	मैसर्स जेनेटिक केमिकल इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
53.	003435	मैसर्स कल्पतरु मार्बल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
54.	003443	मैसर्स श्री श्याम आईस फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
55.	003495	मैसर्स वेस्ट इण्डिया गैस प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	003501	मैसर्स प्रियाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	003533	मैसर्स दुर्गा सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
58.	003543	मैसर्स महावीर ऑयल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	003555	मैसर्स सनराइज़ रबड़ इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
60.	003559	मैसर्स डीपी खेतान प्राईवेट लिमिटेड
61.	003603	मैसर्स उमा शंकर कन्स्ट्रक्शन एण्ड होल्डिंग्स
62.	003624	मैसर्स जयपुर पिक होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	003627	मैसर्स जीबीएस लेदर इन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
64.	003672	मैसर्स राजस्थान पोलोपैक लेमिनेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	003685	मैसर्स जुनेजा स्टील ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	003717	मैसर्स पनुसे प्राईवेट लिमिटेड
67.	003724	मैसर्स एक्यूरेट स्पनिंग स्पेरेस प्राईवेट लिमिटेड
68.	003736	मैसर्स मरूधर मार्केटिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
69.	003745	मैसर्स माइटी मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
70.	003841	मैसर्स जौहरी लाल मदन गोपाल प्राईवेट लिमिटेड
71.	003869	मैसर्स जय हनुमान फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	003904	मैसर्स एसोसिएटेड एग्री प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	003920	मैसर्स माउण्ट ड्रिलिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
74.	003930	मैसर्स शेखावटी ग्रुप ऑफ होटल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
75.	003934	मैसर्स सेन्चुरी एग्री इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
76.	004000	मैसर्स फण्ड्स एडवरटाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
77.	004020	मैसर्स जे आर मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	004039	मैसर्स बेलमप कौटन कं. प्राईवेट लिमिटेड
79.	004059	मैसर्स इन्टरमेड प्राईवेट लिमिटेड
80.	004111	मैसर्स कोन्स्टेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
81.	004199	मैसर्स आनन्द माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड
82.	004264	मैसर्स श्री वैभव सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	004315	मैसर्स सचेतन मिरलल्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	004335	मैसर्स सनराइज़ कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	004336	मैसर्स हांडोती कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	004395	मैसर्स विगाद हाईड्रटेड लाईम प्रोडक्ट्स
87.	004419	मैसर्स श्री ट्रान्सलाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	004445	मैसर्स उमरॉय मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
89.	004452	मैसर्स सल्लिफ्ट एण्ड एलाईड केमिकल्स इण्डिया
90.	004463	मैसर्स नीलकण्ठ मिनरल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	004528	मैसर्स जयपुर एस्टेट एक्सचेंज प्राईवेट लिमिटेड
92.	004557	मैसर्स वाई जी कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
93.	004560	मैसर्स अभिनव इण्डस्ट्रीज़ केमिकल्स एण्ड कोस्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	004620	मैसर्स ऋषिकूल फार्मसी प्राईवेट लिमिटेड
95.	004646	मैसर्स यूनिक ऑटोकिंग टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	004654	मैसर्स धनंजय केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	004750	मैसर्स मालु रिट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
98.	004825	मैसर्स नटराज बिबिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	004858	मैसर्स क्लासिक सिरेमिक्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	004881	मैसर्स मारवाड प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	004889	मैसर्स आस्क एक्जिम्प प्राईवेट लिमिटेड
102.	004907	मैसर्स भृंगु इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	005080	मैसर्स एमआर मोर मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	005081	मैसर्स केपसंग मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	005091	मैसर्स आकाश मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
106.	005098	मैसर्स लेकसिटी केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइज़र्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
107.	005107	मैसर्स नव जीवन टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	005113	मैसर्स टी. जी. इलैक्ट्रोमेल्ट प्राईवेट लिमिटेड
109.	005120	मैसर्स सन्मर् मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	005125	मैसर्स शम्भू टाईल्स एण्ड मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	005123	मैसर्स विजय दीप स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड
112.	005129	मैसर्स रितु मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
113.	005134	मैसर्स आर्कलेण्ड्स होटल्स एण्ड प्रोपर्टीज़ प्राईवेट लिमिटेड
114.	005148	मैसर्स खुशबू स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
115.	005149	मैसर्स श्रीप्रिया ऑर्गेनिक प्राईवेट लिमिटेड
116.	005152	मैसर्स मरुस्थली एग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
117.	005166	मैसर्स जयन्ती टैक्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
118.	005180	मैसर्स डीएल सन्स मार्बल्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
119.	005191	मैसर्स बाबा हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड
120.	005193	मैसर्स रेनबो कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
121.	005196	मैसर्स ताज स्टील एण्ड एलोज़ प्राईवेट लिमिटेड
122.	005197	मैसर्स अग्रसेन ऑयल प्राईवेट लिमिटेड
123.	005201	मैसर्स भागेरिया मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
124.	005213	मैसर्स वर्धमान स्टोन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
125.	005214	मैसर्स महा प्रज्ञा मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
126.	005220	मैसर्स बगा स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
127.	005222	मैसर्स फ़ूट समार्डल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
128.	005234	मैसर्स सनजियोनिक मारवाड़ प्राईवेट लिमिटेड
129.	005243	मैसर्स भीलवाड़ा फ़्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
130.	005266	मैसर्स दुर्गा बिल्डिंग मैटिरियल्स प्राईवेट लिमिटेड
131.	005267	मैसर्स रबी फिल्मस् प्राईवेट लिमिटेड
132.	005272	मैसर्स गर्ग मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
133.	005274	मैसर्स मधु नीटर्स एण्ड प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
134.	005278	मैसर्स कमल टायर एण्ड थ्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
135.	005280	मैसर्स सी. पी. होटल्स रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
136.	005291	मैसर्स गंगा मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
137.	005313	मैसर्स अलवर मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
138.	005314	मैसर्स सौरभ वायर्स प्राईवेट लिमिटेड
139.	005316	मैसर्स कोठारी मैग्नेसाइट प्राईवेट लिमिटेड
140.	005317	मैसर्स सौभाग्यमान मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
141.	005320	मैसर्स आनन्द मंगल एग्रीकल्चर फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
142.	005322	मैसर्स सुपरमेक रिट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
143.	005323	मैसर्स आज्ञा होटल्स एण्ड मोटल्स प्राईवेट लिमिटेड
144.	005330	मैसर्स त्रिमूर्ति मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
145.	005334	मैसर्स अचुज मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
146.	005349	मैसर्स देवश्री सीमेन्ट लिमिटेड
147.	005351	मैसर्स मारवाड़ लीज़िंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
148.	005364	मैसर्स मित्तल एक्सीलिक प्राईवेट लिमिटेड
149.	005372	मैसर्स सत्यान्स ग्रेनाइट इन्टरनेशनल लिमिटेड
150.	005377	मैसर्स गोयल फण्ड्स एण्ड मर्केंटाइल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
151.	005378	मैसर्स श्री बालाजी फण्डस् एण्ड मर्केंटाइल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
152.	005385	मैसर्स प्रताप मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
153.	005386	मैसर्स देवो ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
154.	005388	मैसर्स त्रिसुर टेक्नोलॉजिक्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
155.	005394	मैसर्स जैसलमेर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
156.	005401	मैसर्स डी. के. मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	005403	मैसर्स हेमलता हायर परचेज़ कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
158.	005415	मैसर्स श्री कनिन्द्रा ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
159.	005422	मैसर्स अजमेर फुट कूल प्राईवेट लिमिटेड
160.	005426	मैसर्स देवनारायण मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
161.	005451	मैसर्स शक्ति कनफेक्शनरीज़ इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
162.	005452	मैसर्स संग्राम हाऊसिंग फाईनान्स लिमिटेड
163.	005459	मैसर्स भारती मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
164.	005465	मैसर्स गिरनार ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
165.	005457	मैसर्स अंटार्टिका ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
166.	005473	मैसर्स तरेण्डी पोलीपेट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
167.	005478	मैसर्स हाईवेज़ रेसिंस प्लास्टिक्स एण्ड पाईप्स लिमिटेड
168.	005484	मैसर्स सोनी डायमण्ड एण्ड स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड
169.	005489	मैसर्स तोरिनो मार्मो ग्रानी प्राईवेट लिमिटेड
170.	005499	मैसर्स आर्टीसन्स आर्ट इण्डिया एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
171.	005500	मैसर्स राजधानी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
172.	005521	मैसर्स तीर्थकार मार्बल्स एण्ड टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
173.	005532	मैसर्स श्री कृषि क्रांति केन्द्र प्राईवेट लिमिटेड
174.	005534	मैसर्स राज किरण हाऊसिंग फाईनान्स लिमिटेड

1	2	3
175.	005543	मैसर्स भंवरलाल ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
176.	005558	मैसर्स तरुण कार्स्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
177.	005561	मैसर्स अरावती फेब्स एण्ड काप्टस प्राईवेट लिमिटेड
178.	005570	मैसर्स हैपी होम मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
179.	005577	मैसर्स अग्रसेन वनस्पति प्राईवेट लिमिटेड
180.	005595	मैसर्स जी. पी. बी. इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
181.	005601	मैसर्स चितलंगिया केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
182.	005611	मैसर्स सुनील मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
183.	005614	मैसर्स बेला मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
184.	005637	मैसर्स कालिंग मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
185.	005649	मैसर्स संगम सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
186.	005653	मैसर्स कानीन्दी लीजिंग इण्डिया लिमिटेड
187.	007619	मैसर्स ग्रोमोर केपिटल सर्विसिस लिमिटेड
188.	010220	मैसर्स चुनिन्दा पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
189.	010238	मैसर्स जयपुर आर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
190.	010298	मैसर्स महाशक्ति मार्मो ग्रानी प्राईवेट लिमिटेड
191.	010324	मैसर्स विनायक पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
192.	010380	मैसर्स यश मार्मो एण्ड ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
193.	010427	मैसर्स एटना ऑवरसील प्राईवेट लिमिटेड
194.	010436	मैसर्स झुन्झुनु हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
195.	010578	मैसर्स बाबु लाल सुरेश कुमार जैन प्राईवेट लिमिटेड
196.	010579	मैसर्स प्लास्टो मेड प्राईवेट लिमिटेड
197.	010603	मैसर्स श्रृंगार मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
198.	010806	मैसर्स नाकोडा रिफ़ैक्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
199.	010839	मैसर्स जिमो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
200.	010932	मैसर्स के. के. पोलीटेक्स प्राईवेट लिमिटेड
201.	010933	मैसर्स महालक्ष्मी मल्टीप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
202.	012590	मैसर्स सेनु ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
203.	013218	मैसर्स निलमनी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
204.	013231	मैसर्स सोमनाथ महादेव मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
205.	013248	मैसर्स शिव शान्ति मार्बल एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
206.	013313	मैसर्स पी.पी.एम. फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
207.	013409	मैसर्स शिखार स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
208.	013446	मैसर्स अम्भीशन रबड़ प्राईवेट लिमिटेड
209.	013447	मैसर्स कुलजीत मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
210.	013616	मैसर्स प्रोमोर सेविंग्स प्राईवेट लिमिटेड
211.	013622	मैसर्स कुशाल जेम्स प्राईवेट लिमिटेड
212.	013640	मैसर्स अभिनन्दन स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड
213.	013692	मैसर्स मनिका स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
214.	013778	मैसर्स आर. एस. हैल्थकेयर एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राईवेट लिमिटेड
215.	013787	मैसर्स राम प्रकाश मिथा आईस एण्ड कोल्ड स्टोर प्राईवेट लिमिटेड
216.	013796	मैसर्स सिजिल ऑटो क्लचेज़ प्राईवेट लिमिटेड
217.	013806	मैसर्स जेवरिया पेट्रोलियम लिमिटेड
218.	013810	मैसर्स तपाडिया सुबरक प्लुएक्सज प्राईवेट लिमिटेड
219.	013812	मैसर्स रानोली मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
220.	013864	मैसर्स संत हरिदास इनजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड
221.	013869	मैसर्स मेडीलिक फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
222.	013872	मैसर्स भगवती टिस्सूज प्राईवेट लिमिटेड
223.	013875	मैसर्स धाधा मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
224.	013896	मैसर्स गोवर्धन मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
225.	013899	मैसर्स उर्मगिनी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
226.	013910	मैसर्स प्रथाना टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
227.	013935	मैसर्स पभूजी मार्बल एण्ड ग्रेनाइट प्राईवेट लिमिटेड
228.	013952	मैसर्स आसू विधा ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
229.	013959	मैसर्स डॉ. बी. एल. शर्मा फार्मसी प्राईवेट लिमिटेड
230.	013964	मैसर्स हिमानी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
231.	013976	मैसर्स छिन्न मस्ता फार्मस एण्ड कोलोनाईज़र्स प्राईवेट लिमिटेड

एस. पी. कुमार
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स राईरा कम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 15 अप्रैल 2010
सं. आर.ओ.सी./52612/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि मैसर्स राइरा कम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स युनाइटेड कॉरपोरेट सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 15 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./21281/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स युनाइटेड कॉरपोरेट सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. डी. गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जीवनदीप कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 15 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./35919/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जीवनदीप कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. डी. गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मेघा सीड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 15 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./37818/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेघा सीड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. डी. गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स तिरुपति स्कायस्कोपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./30775/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स तिरुपति स्कायस्कोपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इन्स्ट्रक्शन कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./36814/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इन्स्ट्रक्शन कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिद्धकाय कन्सल्टेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./24501/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिद्धकाय कन्सल्टेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इफेक्टिव आउट सोर्सिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./48725/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एफेक्टिव आउट सोर्सिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पूर्वी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./53673/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पूर्वी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पूर्वी पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./53653/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पूर्वी पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अभिमुक्त फार्मेशनियल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./21721/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अभिमुक्त फार्मेशनियल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आर. के. रिन्युएबल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./54847/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आर. के. रिन्युएबल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स इम्पलसीव सोफ्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी./46667/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इम्पलसीव सोफ्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अप्पील कारगो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चैन्ने-600006, दिनांक 15 अप्रैल 2010

सं. 560 (3) का.क.म./कं.पं-चैन्ने/धारा 560/2010/00055--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अप्पील कारगो प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स जाडे एजुकेशनल कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चैन्ने-600006, दिनांक 15 अप्रैल 2010

सं. 560 (3) का.क.म./कं.पं-चैन्ने/धारा 560/2010/00049--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में

तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स टीजेटी एजेन्सी एसेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चैन्ने-6000006, दिनांक 15 अप्रैल 2010

सं. 560 (3) का.क.म./कं.पं-चेन्नै/धारा 560/2010/00266--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टीजेटी एजेन्सी एसेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अडोर्निस फर्नीचर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चैन्ने-6000006, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. 560 (3) का.क.म./कं.पं-चेन्नै/धारा 560/2010/00041--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अडोर्निस फर्नीचर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एडु कन्सल्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चैन्ने-6000006, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. 560 (3) का.क.म./कं.पं-चेन्नै/धारा 560/2010/00062--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान

पर मैसर्स एडु कन्सल्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स फरीडा मैनेजमेंट सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चैन्ने-6000006, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. 560 (3) का.क.म./कं.पं-चेन्नै/धारा 560/2010/00030--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फरीडा मैनेजमेंट सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ग्रेसेन्ट स्टार एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चैन्ने-6000006, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. 560 (3) का.क.म./कं.पं-चेन्नै/धारा 560/2010/00033--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्रेसेन्ट स्टार एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

तमिलनाडु, अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीपपुंज

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 7th April 2010

No. DP/PERS.1/2010/1001/3/47/2002—Services of Shri D. C. Jain, IPS (RJ:1991), DIG, CBI, have been placed at the disposal of Government of Rajasthan with effect from the afternoon of 31.03.2010 on repatriation, as per para 8 of MHA's O.M. No. I-21023/21/97-IPS dated 06.04.2000 relating to IPS Tenure Policy.

S. J. M. GILLANI
Dy. Dir. (Admn.)

New Delhi-110003, the 15th April 2010

No. DPPERS. (M) 2009/1065/A-19017/11/2009—Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint Shri Pramod Shrotria, Crime Assistant to the grade of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 18.11.2009.

M. SACHDEV
Admin. Officer (Pers.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 8th April 2010

No. 2/25/08-Admn/81770—The Competent Authority, Central Vigilance Commission, hereby appoints the following Personal Assistants in the Commission as Private Secretary on ad-hoc basis in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 26th March, 2010 (F/N) for a period of three months or till further orders, whichever is earlier :—

- (i) Shri Jayant Tandon
- (ii) Shri A. K. Mishra

R. N. NAYAK
Under Secy. (Admn.)

No. 2/31/08-Admn/81771—The Competent Authority, Central Vigilance Commission, hereby appoints Smt. Asha Saxena, Assistant in the Commission as Section Officer on ad-hoc basis in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 5th April, 2010 (F/N) to 30.05.2010 or till further orders, whichever is earlier.

R. N. NAYAK
Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 5th April 2010

No. O.II.3809/09-Pers-MOs—Consequent on expiry of one month's notice served upon Dr. Rajashyam Gogai,

Medical Officer (Assistant Commandant) (IRLA 7981), 170 Bn on 08/3/2010, his services stands terminated with effect from 08/3/2010 (AN) under clause 4(1) of offer of appointment read with sub rule (1) of Rule-5 of the CCS (Temporary Service) Rules 1965. Accordingly, name of above doctor stands struck off from the rolls of CRPF from the same date.

T. CHANDRASEKHARAN
DIGP (Pers.)

New Delhi-110003, the 10th April 2010

No. P.III-2/2010-Min—Consequent on their retirement from the Government Service on attaining the age of Superannuation, the following have relinquished the charge of Joint Assistant Director/Section Officers in the Offices as mentioned against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office in which Posted	Date of handing over charge
1.	Shri Rewat Singh, Joint Asstt. Director (IRLA-5765)	Directorate General, CRPF, New Delhi	31.03.2010 (AN)
2.	Shri Bakhshish Singh, Administrative Officer (IRLA-6744)	Directorate General, CRPF, New Delhi	31.03.2010 (AN)

R. N. MISRA
DIG (Organisation)

DIRECTORATE GENERAL,
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 12th April 2010

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers.1/66—The President is pleased to appoint the following Inspectors (Min/Steno) and Assistant Commandant/JAO (Local Rank) on regular promotion to the rank of Assistant Commandant/JAO, in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- (+) Grade Pay of Rs. 5,400/- on regular basis in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as AC/JAO on regular basis
1	2	3	4
	Shri/Smt.		
1.	Umesh Prasad Srivastav	VSP Visakhapatnam	18.01.10 (FN)
2.	Sidheshwar Singh	ECL Seetalpur	15.01.10 (FN)
3.	Ganpat Lal Patashkar	Group HQrs., Patna	15.01.10 (FN)
4.	Yash Karan Singh	SZ HQrs., Chennai	15.01.10 (FN)
5.	A. K. Lahiry	BCCL Dhanbad	23.01.10 (FN)

1	2	3	4
	Shri/Smt.		
6.	Tara Singh	BSP Bhilai	15.01.10 (FN)
7.	Pawan Kumar Dhamija	6th Res. Bn. Deoli	15.01.10 (FN)
8.	J. N. Das	Group HQrs., Chandigarh	16.01.10 (FN)
9.	K. M. Nanaiah	NLC Neyveli	15.01.10 (FN)
10.	G. H. Hassan Khande	NES HQrs., Kolkata	18.01.10 (FN)
11.	Tuhin Kant Mondal	NZ HQrs. New Delhi	22.02.10 (FN)
12.	Dwarika Manjhi	Chennai Airport	22.03.10 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 13th April 2010

No. 1/7/2010-Ad.III—The President is pleased to appoint Shri K. Senthil Kumar, IAS (BH:96) an officer belonging to Bihar Cadre of the Indian Administrative Services as Director of Census Operations, Bihar with effect from 24.02.2010 (FN) on central deputation basis at his present level of Deputy Secretary for a period of four years i.e. up to 23.02.2014 or until further orders, whichever is earlier.

2. The Headquarters of Shri K. Senthil Kumar will be at Patna.

S. KANNAPPAN
Under Secy.

No. 1/71/2009-Ad.III—The President is pleased to appoint Shri Y. Thamkishore Singh, IAS (SCS:MT:94) an officer belonging to Manipur Cadre of the Indian Administrative Services as Director of Census Operations, Imphal, Manipur with effect from 08.03.2010 (FN) on central deputation basis at his present level of Deputy Secretary till 31.01.2015 i.e. date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

2. The Headquarters of Shri Y. Thamkishore Singh will be at Imphal.

S. KANNAPPAN
Under Secy.

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110124, the 13th April 2010

No. 1738-GE-I/13-2006—The following IA & AS officers have retired on superannuation from Government Service from the date shown against their names :—

1.	Shri J. P. Rajak	Retired on superannuation wef 31.03.2010 (AN)
2.	Shri R. Ramanathan	Retired on superannuation wef 31.03.2010 (AN)

R. NARESH
Asstt. Compt. & Auditor General (P)

MINISTRY OF MINES (INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 7th April 2010

No. A-19011/529/96-Estt. A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri A.M. Kamble, Senior Mining Geologist is promoted to the post of Regional Mining Geologist in Indian Bureau of Mines, Nagpur, w.e.f. 29.03.2010 (F.N.).

S. DASGUPTA
Senior Admn. Officer
For Controller General

MINISTRY OF CULTURE (DEPARTMENT OF CULTURE)

ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 12th April 2010

No. 4-352/2010/Estt.—The Director, Anthropological Survey of India, is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Samira Dasgupta, Research Associate (Cultural) attached to the Head Office of this Survey at Kolkata to the post of Assistant Anthropologist (Cultural), Group-B (Gazetted), in the Scale of Pay of Rs. 6,500-200-10,500/- (pre-revised) corresponding Pay Band PB-2 (9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,600/- (revised) at the North East Regional Centre, Shillong with effect from the forenoon of 26th March, 2010, until further orders.

D. N. PANDEY
Head of Office

MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION, QUARANTINE & STORAGE

NH-IV, Faridabad-121001, the 13th April 2010

No. 2-12/2007-Adm.I—The Plant Protection Adviser to the Government of India is pleased to appoint the following Officers to the post of Plant Protection Officer (Entomology) (Group 'B' Gazetted) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- on regular temporary basis in this Directorate with effect from the dates mentioned against their names until further orders :—

Sl. No.	Name of Officer	Date of Appointment
1.	Sh. Brajesh Mishra	03.02.2010 (F.N.)
2.	Dr. Amit Choudhary	17.02.2010 (F.N.)
3.	Sh. D. K. Nagaraju	24.02.2010 (F.N.)

A. K. CHOPRA
Chief Administrative Officer

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 12th April 2010

CORRIGENDUM

No. PD/7(17)/2009-R-IV/SO(C)/ETG/3364—Reference Notification No. PD/7(17)/2009-R-IV/SO(C)/ETG/2474 dated March 8, 2010. The effective Pay Band shown in the above mentioned Gazette Notification may be corrected to read as "Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay of Rs. 5,400/-" instead of "Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay of Rs. 5,400/-".

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata-700064, the 1st April 2010

No. VECC/Prom (Aug.)/2009/754—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer/E in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 7,600/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 1, 2009 (FN) until further orders. :—

Sl. Name No.	Present post	P.B + G.P
1. Shri Bivas Shoor	Scientific Officer (D)	Rs. 15,600—39,100+6,600/-
2. Shri Uttam Bhunia	Scientific Officer (D)	Rs. 15,600—39,100+6,600/-
3. Dr. Debasis Bhowmick	Scientific Officer (D)	Rs. 15,600—39,100+6,600/-

K. GOPALAKRISHNAN
Administrative Officer-III

No. VECC/Prom (Aug.)/2009/765—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer/D in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 6,600/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 1, 2009 (FN) until further orders. :—

Shri Vinay Singh Scientific Officer (C) Rs. 15,600—39,100+5,400/-

K. GOPALAKRISHNAN
Administrative Officer-III

BOARD OF RADIATION & ISOTOPE TECHNOLOGY

Navi Mumbai-400705, the 13th April 2010

No. BRIT/9/18/63—The President is pleased to appoint Dr. Ashokkumar Ratanlalji Chandak as Technical Officer

Grade 'C' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5,400/- in the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy in a temporary capacity w.e.f. the forenoon of March 18, 2010 until further orders.

A. K. KOHLI
Chief Executive

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 30th March 2010

No. NFC/PAR-1/03/58/267—Chief Executive, NFC appoints Shri N. Sitaramudu, Private Secretary (NS) to officiate as Senior Private Secretary (NS) in temporary capacity in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 17.03.2010 (FN) until further orders.

A. S. LAXMAN RAO
Administrative Officer

No. NFC/PAR-1/03/58/268—Chief Executive, NFC appoints Shri K. V. Rama Sarma, Stenographer Gr.-I as Private Secretary (NS) on adhoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,200/- w.e.f. 17.03.2010 (FN) until further orders.

A. S. LAXMAN RAO
Administrative Officer

Hyderabad-500062, the 9th April 2010

No. NFC/ADMN/PEN/EC-3213/3984—On attaining the age of superannuation, Shri P. Venkataramaiah, Scientific Officer 'D' (Pay Band Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 6,600/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.01.2010 (AN).

N. V. S. V. PRASAD
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/ADMN/PEN/EC-1932/3985—On attaining the age of superannuation, Shri R. Sukumaran, Scientific Officer 'D' (Pay Band Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 6,600/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 28.02.2010 (AN).

N. V. S. V. PRASAD
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/ADMN/PEN/EC-0611/3986.—On attaining the age of superannuation, Shri T. Radha Krishna Murthy, Scientific Officer 'D' (Pay Band Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 6,600/- of Nuclear Fuel Complex, Department

of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31-08-2008 (AN).

N.V.S.V. PRASAD
Asstt. Personnel Officer

INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603102, the 6th April 2010

No. IGC/A-11013/2010-R-302.—President is pleased to appoint the undermentioned Officers in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Technical Officers/Engineers Grade 'C' on an initial pay of Rs. 21,000/- [Rs. 15,600/- + Rs. 5,400/- G.P.] in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with effect from the forenoon of the date indicated against each. The other details are shown below :—

Sl. No.	IC No. / Name	Date of Birth	Basic Pay + G.P.	Date of Joining	Head of Account
	S/Sh./Smt./Kum.		Rs.		
1.	10074/ Ashish Jain FRFCF	06-03-81	21,000/-	01-02-10	R&D
2.	10079/ Kishan Singh SIMS/ Ch. MSG	02-01-83	21,000/-	10-02-10	R&D
3.	10083/ Mano R. ESG	13-02-81	21,000/-	17-02-10	R&D
4.	10085/ Venkatasubramani ESG D.	04-10-79	21,000/-	25-02-10	R&D
5.	10086/ Balakumaran ESG K.S.	11-11-84	21,000/-	25-02-10	R&D
6.	10087/ Mahendra GRIP/ Prabhu N. MMG	04-03-80	21,000/-	02-03-10	R&D
7.	10088/ Sangeetha J. NDED/ MMG	23-04-85	21,000/-	02-03-10	R&D
8.	10025/ Senthil Kumar ESG H.	15-12-84	21,000/-	22-03-10	R&D

V. DAYALAN
Chief Administrative Officer

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500629, the 5th April 2010

No. AMD-4/1/2009-Rectt/703.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers of Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, Hyderabad by promotion to the grades mentioned against each (carrying the Pay Band as mentioned there under) in the same Directorate in an

officiating capacity from the dates shown against each, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Promotion to Grade/ Pay Band	Date of Assumption of Charge
	S/Shri/Smt./Dr.			
1.	Ch. William Prasad	SO/D	SO-E Pay Band-3 Rs. 15,600— 39,100/- + 7,600/- Gr. Pay	01.07.2009
2.	Kalyan Singh Meena	SO/C	SO-D Pay Band-3 Rs. 15,600— 39,100/- + 6,600/- Gr. Pay	01.07.2009
3.	V. Uma Shankar	SO/C	-Do-	01.07.2009
4.	Rajesh Kumar Singh	SO/C	-Do-	01.07.2009
5.	Khem Chand Pipal	SO/SB	SO-C Pay Band-3 Rs. 15,600— 39,100/- + 5,400/- Gr. Pay	01.07.2009
6.	R. K. Dung Dung	SO/SB	-Do-	01.07.2009
7.	M. Sreenivasa Reddy	SO/SB	-Do-	01.07.2009
8.	Kum. Rita	SO/SB	-Do-	01.07.2009
9.	B. Srinivasa Murthy	SO/SB	-Do-	01.07.2009

V. VIJAYA RAMI REDDY
Administrative Officer-III

Hyderabad-500629, the 16th April 2010

No. AMD-16/1/2002-Rectt./Vol. II/769.—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri B. Ashok Kumar, Assistant Security Officer (A) (PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,200/-), Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad to officiate as Security Officer (PB-2, Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-) in Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Nagpur with effect from the forenoon of 10-03-2010 until further orders.

P. MOHAN BABU
Chief Administrative & Accounts Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 12th April 2010

No. A-32013/4/2009-E-I.—The President is pleased to extend the adhoc appointment of the following Aeronautical Officers in the Aircraft Engineering Directorate of the office of Director General of Civil Aviation, in the scale of pay of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- beyond

04-05-2010 for a period of six months (till 4-11-2010 A/N) or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier :—

1. Smt. Vinita Jain
2. Shri D. S. Yadav
3. Shri M. K. Goyal
4. Shri Shamsher Singh

The ad-hoc appointment will not confer on them any right for regular promotion or for seniority etc. Further, the Government reserves the right to terminate their ad-hoc appointment without assigning any reason or giving any notice etc. to the Officers concerned.

VIJAY SINGH
Dy. Dir. of Administration

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Octagon International Limited

New Delhi-110019, the 6th April 2010

No.560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00040.—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Octagon International Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

EGINIUS TIRKEY
Deputy Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sarah Day Associates Private Limited

Jaipur, the 26th March 2010

No.ROC/JPR/560/8311/1914.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sarah Day Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jewchem Healthcare Private Limited

Jaipur, the 29th March 2010

No.ROC/JPR/560/23257/1919.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jewchem Healthcare Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Brilliant Consumer Computer Marketing Private
Limited

Jaipur, the 5th April 2010

No.ROC/JPR/560/31242/2207.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Brilliant Consumer Computer Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Naveen Publicity and Marketing Private Limited

Jaipur, the 5th April 2010

No.ROC/JPR/560/9143/2211.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Naveen Publicity and Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sahi Home Study Private Limited

Jaipur, the 6th April 2010

No.ROC/JPR/560/26334/2215.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sahi Home Study Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Janak Motor Parts Private Limited

Jaipur, the 8th April 2010

No.ROC/JPR/560/16508/2788.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Janak Motor Parts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Choice Sales Private Limited

Jaipur, the 8th April 2010

No.ROC/JPR/560/12979/2792.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Choice Sales Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies :

Jaipur, the 13th April 2010

No.ROC/JPR/560/5/329.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and the said Companies are dissolved from the date of this publication in Gazette Notification :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	2078	M/s. Mahalaxmi Creations Private Limited
2.	2668	M/s. Sunita Mine-Chem Industries Private Limited
3.	2825	M/s. Om Petro Chemicals Private Limited
4.	4248	M/s. Prakash Hotels Private Limited
5.	10021	M/s. Share Shoppee Holdings (India) Private Limited
6.	10310	M/s. Gupta Finvest Private Limited
7.	12084	M/s. S. S. Petrochem Private Limited

1	2	3
8.	12087	M/s. V. V. Technoplast Private Limited
9.	12216	M/s. Jupiter Mediplants Private Limited
10.	12227	M/s. Gurushikhar Power Controls Private Limited
11.	12334	M/s. Hi-Profile Steel Private Limited
12.	12413	M/s. Lalwani Engineering Private Limited
13.	12440	M/s. Choudhary Limes Private Limited
14.	12460	M/s. Pashupati Exports Private Limited
15.	12464	M/s. Skylone Fabrics Private Limited
16.	12471	M/s. Rajrani Associates Private Limited
17.	12482	M/s. Sunrise Formulation Private Limited
18.	12938	M/s. Khandelwal Dye Chem Private Limited
19.	12949	M/s. Jeet Marbles Private Limited
20.	12950	M/s. Himgiri Marbles Private Limited
21.	12951	M/s. Western Stones Private Limited
22.	12953	M/s. Mansukh Marbles Private Limited
23.	12954	M/s. Pranav Marbles Private Limited
24.	13501	M/s. Joiya Investments Private Limited
25.	14330	M/s. Dynamic Aluminiums Private Limited
26.	14943	M/s. Eden Finworth Private Limited
27.	15114	M/s. Chambal Medicare Private Limited
28.	15182	M/s. G. B. L. Engineering Company Private Limited
29.	15278	M/s. Hanu Inorganics Limited
30.	15310	M/s. Bensa Textiles Private Limited
31.	16566	M/s. Suratan Computers Private Limited
32.	16679	M/s. Original Namkeens Private Limited
33.	16742	M/s. Swati Kitchen Care Private Limited
34.	16832	M/s. Sunny Seeds Trading Private Limited
35.	16899	M/s. Thanda Drinks Rajasthan Private Limited
36.	17889	M/s. L. Jagirdar Palace Hotel and Resorts Private Limited
37.	18105	M/s. Navkar Artexpo Private Limited
38.	18498	M/s. Victoria Marvostones Private Limited
39.	18989	M/s. Eden Tours Private Limited
40.	19303	M/s. Rajvansh Clinic Private Limited
41.	21053	M/s. Anand Agarwal Steels Private Limited
42.	21879	M/s. Rukmani Business Private Limited
43.	22287	M/s. Beautiful Tree Art and Craft Private Limited

1	2	3
44.	22671	M/s. Rajasthan Flying and Aircrafts Maintenances Private Limited
45.	24049	M/s. Vaishnokripa Food Private Limited
46.	26014	M/s. Super Prime Techno Energy Private Limited
47.	26015	M/s. Accent Compusoft Technologies Private Limited
48.	26881	M/s. Sarowa Computer Software Hardware and Networking Private Limited
49.	27781	M/s. Regal Smart Consumer Marketing Private Limited
50.	28024	M/s. Mahabali Info Services Private Limited
51.	28674	M/s. Shree Vinayak Multi Trade Private Limited
52.	29378	M/s. Regal Smart Marketing Private Limited

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies :

Jaipur-302001, the 13th April 2010

No. ROC/JPR/560(5)/328—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and the said Companies are dissolved from the date of this publication in Gazette Notification :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	001197	M/s. Garud Travels Private Limited
2.	001301	M/s. Rajasthan Pigments and Chemicals Private Limited
3.	001541	M/s. Dhankhar Electric and Cable Co. Private Limited
4.	001711	M/s. Jain Minerals Industries Private Limited
5.	001954	M/s. Arunodaya Foundries Private Limited
6.	003261	M/s. Supreme India Private Limited
7.	003289	M/s. Rajgarh Cement Udyog Private Limited
8.	003561	M/s. Surya Suitings Private Limited
9.	004278	M/s. Goodwill Rubber Products Private Limited

1	2	3
10.	004294	M/s. Pinkcity Laserset Private Limited
11.	004850	M/s. Basant Poultry Farm Private Limited
12.	010115	M/s. S. R. P. Finvest Private Limited
13.	010559	M/s. Vinayaka Thermotex Private Limited
14.	010661	M/s. Shri Radhika Complex Private Limited
15.	011442	M/s. Systematic Agro Private Limited
16.	012009	M/s. Oswal Plantation and Dairy Private Limited
17.	012047	M/s. Deep Housing Private Limited
18.	012053	M/s. Darshan Agro Forestry Limited
19.	012081	M/s. Devis Mote Private Limited
20.	012957	M/s. Parindra Enterprises Private Limited
21.	013139	M/s. Ganga Yamuna Saraswati Finance and Securities Limited
22.	013647	M/s. Maestro Leasing and Finanz Limited
23.	013684	M/s. Gur Dev Housing Finance Limited
24.	014032	M/s. Sunder Properties Private Limited
25.	015316	M/s. Consumer Welfare Club Private Limited
26.	015337	M/s. Urvi Art Creations Private Limited
27.	015343	M/s. Yamuna Proteins Private Limited
28.	015368	M/s. Suvidha Marbles Private Limited
29.	015369	M/s. Kotadiwala Agro Cold Storage Private Limited
30.	015382	M/s. Marubhumi Castle Club Private Limited
31.	015580	M/s. Om Shri Satya Sai Traders Private Limited
32.	016614	M/s. Cellzone Biotech Private Limited
33.	016740	M/s. Vishesh Marbles Private Limited
34.	020773	M/s. Nupur Goenka Educare Private Limited
35.	020847	M/s. G. D. Goenka India Flying School Private Limited
36.	020848	M/s. G. D. Goenka Communications Technologies Private Limited
37.	020947	M/s. G. D. Goenka Hi-Tech City India Private Limited
38.	020948	M/s. G. D. Goenka Hotels and Resorts India
39.	020949	M/s. G. D. Goenka Institute of Health and Medical

1	2	3
40.	001802	M/s. Khetan Bearings Private Limited
41.	003650	M/s. Malsons Electronics Private Limited
42.	004155	M/s. Gavri Exports Private Limited
43.	004156	M/s. Joshi Cold Storage Private Limited
44.	004157	M/s. Kanpur Farrukhabad Transport Company Private Limited
45.	004168	M/s. Krishna Raodlines Private Limited
46.	004173	M/s. Camel Abrasives Private Limited
47.	004180	M/s. S. P. Holdings Private Limited
48.	004185	M/s. Lalit and Lalit Pharmaceuticals Private Limited
49.	007263	M/s. Prabhakar Alloys Private Limited
50.	007693	M/s. RLL Hotels Limited
51.	008203	M/s. Falgoun Farms Private Limited
52.	008214	M/s. Suchita Marketing Private Limited
53.	008293	M/s. Sefton Medicare Private Limited
54.	008884	M/s. Pragmatic Marketing Company Private Limited
55.	009256	M/s. Jaipur Marketing Private Limited
56.	009650	M/s. Shakun Exports Private Limited
57.	010029	M/s. In Shopee Card Private Limited
58.	010054	M/s. Citizen Metal Works Private Limited
59.	010442	M/s. Jagadamba Home Finance Private Limited
60.	010531	M/s. Satyam Polychem Private Limited
61.	011015	M/s. Girraj Computer Services Private Limited
62.	011300	M/s. Shailza Securites Private Limited
63.	011514	M/s. Jain Gehani and Khetani Finance Private Limited
64.	012528	M/s. Fatehpuria Colonization Private Limited
65.	012891	M/s. Sheelesh Savings Private Limited
66.	014551	M/s. SKG Fin-Lone Private Limited
67.	015098	M/s. JJRP Chit Fund and Finance Private Limited
68.	015132	M/s. Shiv Agrowaste Private Limited
69.	015134	M/s. K. K. S. Chit Fund Private Limited
70.	015158	M/s. Shri Shyam Bricks Private Limited
71.	015302	M/s. Hi Fi Marble Private Limited

1	2	3
72.	015815	M/s. Ashawa Recruitment Management Services Private Limited
73.	016271	M/s. Pinakin Hotels and Resorts Private Limited
74.	016285	M/s. Bansal Infosys Private Limited
75.	017006	M/s. Raag Hotels and Resorts Private Limited
76.	017075	M/s. J. R. Modi Jewels Private Limited

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies :

Jaipur-302001, the 13th April 2010

No. ROC/JPR/560(3)/326—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	001044	M/s. Shree Ganesh Wool Pressing Co. Limited
2.	001459	M/s. S. P. Gupta and Co. Private Limited
3.	001545	M/s. Neelmani Savings and General Finance Private Limited
4.	001577	M/s. Rajawat Minerals and Paints Private Limited
5.	001587	M/s. Boards and Boards Private Limited
6.	001653	M/s. Banas Open Pan Sugar Factory Private Limited
7.	003227	M/s. Swaika Soap Chemicals and Allied Industries Private Limited
8.	003556	M/s. Anand Metal Company Private Limited
9.	003572	M/s. Agrasen Textiles and Investment Private Limited
10.	003601	M/s. Sacheti Brothers Private Limited
11.	003628	M/s. Transcontinental Consultants Private Limited
12.	003785	M/s. S. R. G. Computers Private Limited

1	2	3
13.	003895	M/s. Ambaji Pipes Private Limited
14.	003936	M/s. Vidhu Hotels Private Limited
15.	004078	M/s. Allied Polymers Private Limited
16.	004311	M/s. Chakra Alloys and Steels Private Limited
17.	004330	M/s. Rajasthan Energy Equipment Private Limited
18.	004407	M/s. Bhati Shah Marble Private Limited
19.	004447	M/s. Marudhar Tyre and Treads Private Limited
20.	004502	M/s. Gajjars Syntex Private Limited
21.	004605	M/s. Alora Arc Steels Private Limited
22.	004879	M/s. Raj Cements Private Limited
23.	004919	M/s. Pearl Auto Instruments Private Limited
24.	005071	M/s. Sunanda Sea Foods Private Limited
25.	005093	M/s. Hari Solvex Private Limited
26.	005139	M/s. Apoorva Tyre and Treads Private Limited
27.	005224	M/s. R. D. Marbles and Granite Private Limited
28.	005231	M/s. Glorious Marbles Private Limited
29.	005242	M/s. Ranjan Marbles and Granites Private Limited
30.	005255	M/s. Jain Stones Private Limited
31.	005257	M/s. Skylark Plastics Private Limited
32.	005300	M/s. Hi-Tech Marbles and Granites Private Limited
33.	005360	M/s. Somani Marbles Private Limited
34.	005367	M/s. J S. Vegetable Private Limited
35.	005517	M/s. Sunita Marbles Private Limited
36.	005586	M/s. Purnima Marble Private Limited
37.	005589	M/s. Genuine Tobacco Company Private Limited
38.	005638	M/s. Mangala Tyre and Tread Private Limited
39.	005673	M/s. Kashav Fibers Private Limited
40.	005682	M/s. Kuldevi Marbles Private Limited
41.	005696	M/s. Valeque Pharmakin Private Limited
42.	005707	M/s. Supreme Grinders Private Limited
43.	005711	M/s. Wardhman Farms Private Limited

1	2	3
44.	005724	M/s. Sita Oil Mills Private Limited
45.	005730	M/s. Rajhans Marbles and Granites Private Limited
46.	005731	M/s. Sundram Granites Private Limited
47.	005734	M/s. Sarjan Housing Finance Development Limited
48.	005736	M/s. Santosh Developers Private Limited
49.	005746	M/s. Nigar Mahal Grana Marble Private Limited
50.	005750	M/s. Pasupati Granites Private Limited
51.	005760	M/s. Maru Vanspati Private Limited
52.	005762	M/s. Pooja Castings Private Limited
53.	005764	M/s. Singhvi Finance Private Limited
54.	005767	M/s. Areena Laboratories Private Limited
55.	005780	M/s. Nihal Granite and Marbles Private Limited
56.	005785	M/s. Inter Link Apparels Private Limited
57.	005787	M/s. Magna Software Private Limited
58.	005797	M/s. Friends Footwears Private Limited
59.	005804	M/s. Hamdam Foundation Limited
60.	005805	M/s. Kaycee Containers Private Limited
61.	005806	M/s. Jaya Synthetics Private Limited
62.	005811	M/s. Paldeep Engineering Private Limited
63.	005812	M/s. Friends Poultry Farm Private Limited
64.	005825	M/s. Nagthani Marbles Private Limited
65.	005832	M/s. Sagasji Marbles Private Limited
66.	005835	M/s. Malawat Builders Private Limited
67.	005842	M/s. Bhaval Leasing and Finance Limited
68.	005846	M/s. Shree Swarup Narain Finance and Investment Private Limited
69.	005847	M/s. Chandrakala Marbles Private Limited
70.	005849	M/s. Alwar Metals Private Limited
71.	005851	M/s. Ishan Tyre Private Limited
72.	005852	M/s. Bilara Cement Private Limited
73.	005855	M/s. Krishna Communications Private Limited
74.	005858	M/s. Lunawat Cements Private Limited
75.	005859	M/s. Dhanraj Edible Products Private Limited

1	2	3	1	2	3
76.	005860	M/s. Pooja Electronics Private Limited	108.	010822	M/s. Precision Machine Tools Private Limited
77.	005861	M/s. Venus Confectioners Private Limited	109.	010912	M/s. Shanti Finsec Private Limited
78.	005865	M/s. Goyal Granites Private Limited	110.	010940	M/s. Shekhawat Properties Private Limited
79.	005871	M/s. N. B. Oils Mills Private Limited	111.	010964	M/s. Kinetic Estates Private Limited
80.	005873	M/s. Behra Cables Private Limited	112.	011042	M/s. Konark Confinia Private Limited
81.	005889	M/s. Venusinfin Private Limited	113.	011047	M/s. Fort Valley Resorts Private Limited
82.	005895	M/s. Anmole Cements Private Limited	114.	011063	M/s. Urvashi Exports Private Limited
83.	005896	M/s. Chetan Cement Private Limited	115.	011099	M/s. Dulari Textiles Private Limited
84.	005900	M/s. Arbuda Minerals and Laboratories Private Limited	116.	011105	M/s. Timex Lubricants Private Limited
85.	005901	M/s. Dyers Prints (India) Private Limited	117.	011115	M/s. Verdhman Dairy Fields Private Limited
86.	005902	M/s. Nand Shree Dairy Private Limited	118.	011150	M/s. Jagdamba Minerals Private Limited
87.	005907	M/s. Unipepsi Marketing Private Limited	119.	011255	M/s. Keo Polymers and Printers Private Limited
88.	005908	M/s. Udaipur Trade Development and Finance Company Private Limited	120.	011264	M/s. Thirst Quinitures Private Limited
89.	008414	M/s. Gopi Poly Art Private Limited	121.	011266	M/s. Gayatri Petrochem Private Limited
90.	010004	M/s. P. A. Y. Associates Private Limited	122.	011269	M/s. Kings Cements Private Limited
91.	010005	M/s. Om Prakash Housing Development Services Private Limited	123.	011275	M/s. Rajdhani Plastics Private Limited
92.	010106	M/s. Garima Impex Private Limited	124.	011280	M/s. Daria Marketing and Finance Private Limited
93.	010223	M/s. Rajnigandha Plantation Research Centre Private Limited	125.	011290	M/s. Astha Corporate Services Private Limited
94.	010272	M/s. Gordhan Das Narottam Das Builders and Cargo Services Private Limited	126.	011318	M/s. Sethi Medisales Private Limited
95.	010292	M/s. Octal Agrotech Private Limited	127.	011334	M/s. Geeta Stones Limited
96.	010322	M/s. Overseas Securities Private Limited	128.	013051	M/s. Mommon Marbles Private Limited
97.	010368	M/s. Nasndwana Capital Services Private Limited	129.	013067	M/s. Lisha Exports Private Limited
98.	010398	M/s. Ganesham Abhushan Kala Kendra Limited	130.	013115	M/s. Chhinmasta Marbles Private Limited
99.	010410	M/s. Ganesh Fuels Private Limited	131.	013120	M/s. Vimal Marble Private Limited
100.	010463	M/s. Ishwar Sprinkler Private Limited	132.	013122	M/s. Desert Lust Tours and Travels Private Limited
101.	010516	M/s. Creative Marbles Private Limited	133.	013328	M/s. Balaji Buildcon Private Limited
102.	010550	M/s. Sanjeevani Marble Private Limited	134.	013360	M/s. Surya Mahal Palace Hotels and Real Estate Private Limited
103.	010556	M/s. Innovative Capfin Private Limited	135.	013364	M/s. Anand Fincap Private Limited
104.	010638	M/s. Poonia Exim Private Limited	136.	013373	M/s. Poonia Agro-Foods Private Limited
105.	010737	M/s. Hadoti Tele Signal Engineers Private Limited	137.	013405	M/s. Greenstar Hotels and Resorts Private Limited
106.	010783	M/s. Raj Krishna Foams Private Limited	138.	013416	M/s. Bowl-In Hotels Private Limited
107.	010807	M/s. Ocean Capital Limited	139.	013434	M/s. Rahul Protiens Private Limited

1	2	3
140.	013531	M/s. Percept Computers Private Limited
141.	013604	M/s. Dantodi Impex Private Limited
142.	013615	M/s. Evergreen Marmo Private Limited
143.	013682	M/s. Rajasthan Pure Drinks Private Limited
144.	013753	M/s. Bansiwala Property Private Limited

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Jaipur-302001, the 13th April 2010

No. ROC/JPR/560(3)/327—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	000118	M/s. Industrial Trust Limited
2.	000335	M/s. Abu Raod Electricity and Industries Co. Limited
3.	000516	M/s. Rajputana Stores Private Limited
4.	000547	M/s. Shri Krishna Industries Private Limited
5.	001045	M/s. Sansar Transport Co. Private Limited
6.	001061	M/s. Rajasthan Ivory Manufacturers Association Private Limited
7.	001212	M/s. Maya Perfumery Products Private Limited
8.	001235	M/s. Jeevan Fertilisers and Chemicals Co. Private Limited
9.	001264	M/s. Alunmina Metal Industries Private Limited
10.	001269	M/s. Mahabani Finance and Investment Private Limited
11.	001361	M/s. Beawar Cables Private Limited
12.	001373	M/s. Jaipur Ferrous and Non-Ferrous Castings Private Limited
13.	001376	M/s. Nam Metals & Chemicals Private Limited

1	2	3
14.	001390	M/s. ICTA Private Limited
15.	001393	M/s. S. R. Mangal Refractory Works Private Limited
16.	001407	M/s. Jaipur Agricultural Implements and General Engineering Works Private Limited
17.	001434	M/s. Bhandari Offset Printers Private Limited
18.	001454	M/s. Laxmi Oil and Extractions Mills Private Limited
19.	001490	M/s. Hotel Pink City Private Limited
20.	001493	M/s. Amber Hotel and Restaurants Private Limited
21.	001503	M/s. Laxmi Benefit Private Limited
22.	001510	M/s. Allied Packaging Industries and Agencies Private Limited
23.	001522	M/s. Jodhpur Oil Products Private Limited
24.	001529	M/s. Verma Saving and Investment Private Limited
25.	001533	M/s. Radiant Rubber Private Limited
26.	001546	M/s. Sphinx Electronics (India) Private Limited
27.	001552	M/s. Khurana Savings and General Finance Private Limited
28.	001556	M/s. Shri Ganesh Bachat Yojna Private Limited
29.	001568	M/s. Sree Porcelain Private Limited
30.	001573	M/s. Rajasthan Paper Cones and Tubes Private Limited
31.	001574	M/s. Nataraj Saving and General Finance Private Limited
32.	001581	M/s. Chhina Spokes and Allied Industries Private Limited
33.	001584	M/s. Pink City Finance Private Limited
34.	001589	M/s. Heeramani Savings and Finance Private Limited
35.	001596	M/s. Rajasthan Straw Board Mills Private Limited
36.	001609	M/s. Bohra Cement Private Limited
37.	001612	M/s. Agarwal Paper and Boards Private Limited
38.	001629	M/s. Mayor Offset Press Private Limited
39.	001650	M/s. Friends Savings Chit Fund and Finance Private Limited

1	2	3	1	2	3
40.	001702	M/s. Rajasthan Watch Manufacturers Private Limited	68.	003736	M/s. Marudhar Marketing Co. Private Limited
41.	001704	M/s. Rakesh Savings and Trading Co. Private Limited	69.	003745	M/s. Mighty Metals Private Limited
42.	001706	M/s. Bikaner Credit and Investment Co. Private Limited	70.	003841	M/s. Johri Lal Madan Gopal Private Limited
43.	001708	M/s. Ashok Conductors Private Limited	71.	003869	M/s. Jai Hanuman Finance Private Limited
44.	001710	M/s. Abhishek Savings and General Finance Private Limited	72.	003904	M/s. Associated Agro Products Private Limited
45.	001720	M/s. Gem Textile Private Limited	73.	003920	M/s. Mount Drilling Company Private Limited
46.	001736	M/s. Anurag Enterprises Private Limited	74.	003930	M/s. Shekhavati Group of Hotels (India) Private Limited
47.	001737	M/s. Plastic Age (India) Private Limited	75.	003934	M/s. Century Agro Industries Private Limited
48.	001748	M/s. Adams Pharmaceuticals Private Limited	76.	004000	M/s. Friends Advertising Private Limited
49.	003057	M/s. Kota Stone and Marble Industries Private Limited	77.	004020	M/s. J. R. Motors Private Limited
50.	003368	M/s. Marudhar Syntex Private Limited	78.	004039	M/s. Belmap Cotton Co. Private Limited
51.	003416	M/s. Taramanik Engineering Industries Private Limited	79.	004059	M/s. Entramed Private Limited
52.	003431	M/s. Genetic Chemical Industries Private Limited	80.	004111	M/s. Constech (India) Private Limited
53.	003435	M/s. Kalpataru Marble (India) Private Limited	81.	004199	M/s. Anand Mining Private Limited
54.	003443	M/s. Shree Shyam Ice Factory Private Limited	82.	004264	M/s. Shree Vallabh Synthetics Private Limited
55.	003495	M/s. West India Gas Products Limited	83.	004315	M/s. Sachetan Minerals Private Limited
56.	003501	M/s. Priyajee Distributors Private Limited	84.	004335	M/s. Sunrise Constructions Private Limited
57.	003533	M/s. Durga Cement Private Limited	85.	004336	M/s. Haroti Constructions Private Limited
58.	003543	M/s. Mahveer Oil Products Private Limited	86.	004395	M/s. Vagad Hydrated Lime Products Private Limited
59.	003555	M/s. Sunrise Rubber Industries Limited	87.	004419	M/s. Shree Translines Private Limited
60.	003559	M/s. D. P. Khaitan Private Limited	88.	004445	M/s. Umrao Marble and Granite Private Limited
61.	003603	M/s. Uma Shankar Construction and Holdings Private Limited	89.	004452	M/s. Sulphite and Allied Chemicals (India) Private Limited
62.	003624	M/s. Jaipur Pink Hotels Private Limited	90.	004463	M/s. Neelkanth Mineral Products Private Limited
63.	003627	M/s. G. B. S. Leather Enterprises Private Limited	91.	004528	M/s. Jaipur Estate Exchange Limited
64.	003672	M/s. Rajasthan Polypack Laminators Private Limited	92.	004557	M/s. Y. G. Construction Private Limited
65.	003685	M/s. Juneja Steel Tubes Private Limited	93.	004560	M/s. Abhinav Industries (Chemicals and Cosmetics) Private Limited
66.	003717	M/s. Pannuse Private Limited	94.	004620	M/s. Rishikul Pharmacy Private Limited
67.	003724	M/s. Accurate Spinning Spares Private Limited	95.	004646	M/s. Unique Autoking Tyres Private Limited

1	2	3	1	2	3
96.	004654	M/s. Dhanjai Chemicals Private Limited	128.	005234	M/s. Sangeonics (Marwar) Private Limited
97.	004750	M/s. Maloo Retrading Company Private Limited	129.	005243	M/s. Bhilwara Flour Mills Private Limited
98.	004825	M/s. Natraj Weaving Mills Private Limited	130.	005266	M/s. Durga Building Materials Private Limited
99.	004858	M/s. Classic Ceramics Private Limited	131.	005267	M/s. Rabi Films Private Limited
100.	004881	M/s. Marwar Plastics Private Limited	132.	005272	M/s. Garg Marbles Private Limited
101.	004889	M/s. ASK Eximp Private Limited	133.	005274	M/s. Madhu Kniters and Processors Private Limited
102.	004907	M/s. Bhargu Engineers Private Limited	134.	005278	M/s. Kamal Tyre and Treads Private Limited
103.	005080	M/s. M. R. Mor Marbles Private Limited	135.	005280	M/s. C. P. Hotels and Resorts Private Limited
104.	005081	M/s. Capsag Marbles Private Limited	136.	005291	M/s. Ganga Marbles Private Limited
105.	005091	M/s. Akash Marbles Private Limited	137.	005313	M/s. Alwar Minerals and Chemicals Private Limited
106.	005098	M/s. Lakecity Chemicals and Fertilizers Private Limited	138.	005314	M/s. Sorabh Wires Private Limited
107.	005107	M/s. Nav Jeevan Tiles Private Limited	139.	005316	M/s. Kothari Magnesite Private Limited
108.	005113	M/s. T. G. Electromelt Private Limited	140.	005317	M/s. Sobhagyan Marbles Private Limited
109.	005120	M/s. SNRP Marbles Private Limited	141.	005320	M/s. Anand Mangal Agriculture Farms Private Limited
110.	005125	M/s. Shambho Tiles and Marbles Private Limited	142.	005322	M/s. Supermake Retrading Private Limited
111.	005123	M/s. Vijay Deep Stones Private Limited	143.	005323	M/s. Azza Hotels and Motels Private Limited
112.	005129	M/s. Ritu Marbles and Granites Private Limited	144.	005330	M/s. Trimurti Marbles Private Limited
113.	005134	M/s. Arclands Hotels and Properties Private Limited	145.	005334	M/s. Achuj Marbles Private Limited
114.	005148	M/s. Khushbu Steels Private Limited	146.	005349	M/s. Devshree Cement Limited
115.	005149	M/s. Shripriya Organic Private Limited	147.	005351	M/s. Marwar Leasing Company Private Limited
116.	005152	M/s. Marusthali Agro Farms Private Limited	148.	005364	M/s. Mittal Acrylic Private Limited
117.	005166	M/s. Jayanti Tex Products Private Limited	149.	005372	M/s. Satyan's Granite International Limited
118.	005180	M/s. D. L. Sons Marbles and Mineral Private Limited	150.	005377	M/s. Goyal Funds and Merchantile Co. Private Limited
119.	005191	M/s. Baba Housing Private Limited	151.	005378	M/s. Shri Balaji Funds and Merchantile Co. Private Limited
120.	005193	M/s. Rainbow Computers Private Limited	152.	005385	M/s. Pratap Marbles Private Limited
121.	005196	M/s. Taj Steel and Alloys Private Limited	153.	005386	M/s. Deo Granites Private Limited
122.	005197	M/s. Agrasen Oils Private Limited	154.	005388	M/s. Trisure Technologies Exports Private Limited
123.	005201	M/s. Bhageria Marbles Private Limited	155.	005394	M/s. Jaisalmer Export Import Private Limited
124.	005213	M/s. Vardhman Stones (India) Private Limited	156.	005401	M/s. D. K. Minerals Private Limited
125.	005214	M/s. Maha Pragya Marbles Private Limited			
126.	005220	M/s. Bagga Steels Private Limited			
127.	05222	M/s. Foot Smiles (India) Private Limited			

1	2	3	1	2	3
157.	005403	M/s. Hamlata Hire-Purchase Company Private Limited	187.	007619	M/s. Growmore Capital Services Limited
158.	005415	M/s. Shri Kanindra Granites Private Limited	188.	010220	M/s. Chuninda Publication Private Limited
159.	005422	M/s. Ajmer Fruit Cool Private Limited	189.	010238	M/s. Jaipur Arts Private Limited
160.	005426	M/s. Devnarayan Marbles Private Limited	190.	010298	M/s. Mahashakti Marmo Grani Private Limited
161.	005451	M/s. Shakti Confectioneries (India) Private Limited	191.	010324	M/s. Vinayak Packaging Private Limited
162.	005452	M/s. Sangram Housing Finance Limited	192.	010380	M/s. Yash Marmo and Granites Private Limited
163.	005459	M/s. Bharti Marbles Private Limited	193.	010427	M/s. Aetna Overseal Private Limited
164.	005465	M/s. Girnar Granites Private Limited	194.	010436	M/s. Jhunjhunu Hospital and Research Centre Private Limited
165.	005457	M/s. Antarctica Granites Private Limited	195.	010578	M/s. Babu Lal Suresh Kumar Jain Private Limited
166.	005473	M/s. Trendy Polypets (India) Private Limited	196.	010579	M/s. Plasto Made Private Limited
167.	005478	M/s. Highways Resins Plastics and Pipes Limited	197.	010603	M/s. Shrangar Marbles Private Limited
168.	005484	M/s. Soni Diamond and Stones Private Limited	198.	010806	M/s. Nakoda Refractories Private Limited
169.	005489	M/s. Torino Marmo Granite Private Limited	199.	010839	M/s. GIMO Exports Private Limited
170.	005499	M/s. Artisans Art India Exports Private Limited	200.	010932	M/s. K. K. Polytex Private Limited
171.	005500	M/s. Rajdhani Marbles Private Limited	201.	010933	M/s. Maha Laxmi Multiplast Private Limited
172.	005521	M/s. Tirthankar Marbles and Tiles Private Limited	202.	012590	M/s. Shenu Trading Company Private Limited
173.	005532	M/s. Shri Krishi Kranti Kendra Private Limited	203.	013218	M/s. Nilamani (India) Private Limited
174.	005534	M/s. Raj Kiran Housing Finance Limited	204.	013231	M/s. Somnath Mahadev Marbles Private Limited
175.	005543	M/s. Bhanwarlal Oil Mills Private Limited	205.	013248	M/s. Shiv Shanti Marble and Minerals Private Limited
176.	005558	M/s. Tarun Castings Private Limited	206.	013313	M/s. PPM Pharma Private Limited
177.	005561	M/s. Aravali Fabs and Crafts Private Limited	207.	013409	M/s. Shikhar Stones Private Limited
178.	005570	M/s. Happy Home Marbles Private Limited	208.	013446	M/s. Ambition Rubbers Private Limited
179.	005577	M/s. Agarsen Vanspati Private Limited	209.	013447	M/s. Kuljeet Marketing Company Private Limited
180.	005595	M/s. G P B Engineers Private Limited	210.	013616	M/s. Growmore Savings Private Limited
181.	005601	M/s. Chittlangia Chemicals Private Limited	211.	013622	M/s. Kaushal Gems Private Limited
182.	005611	M/s. Sunil Marbles Private Limited	212.	013640	M/s. Abhinandan Stones Private Limited
183.	005614	M/s. Bela Marbles Private Limited	213.	013692	M/s. Manika Stores Private Limited
184.	005637	M/s. Kaling Marbles and Granites Private Limited	214.	013778	M/s. R. S. Healthcare and Research Institute Private Limited
185.	005649	M/s. Samgam Cements Private Limited	215.	013787	M/s. Ram Prakash Midha Ice and Cold Store Private Limited
186.	005653	M/s. Kalindi Leasing (India) Limited	216.	013796	M/s. Sijil Auto Clutches Private Limited

1	2	3
217.	013806	M/s. Jewria Petroleum Limited
218.	013810	M/s. Tapadia Subarc Fluxes Private Limited
219.	013812	M/s. Ranoli Marbles Private Limited
220.	013864	M/s. Sant Haridas Inject Private Limited
221.	013869	M/s. Medilink Pharma Private Limited
222.	013872	M/s. Bhagwati Tissues Private Limited
223.	013875	M/s. Dhaddha Miniral's Private Limited
224.	013896	M/s. Goverdhan Marbles Private Limited
225.	013899	M/s. Umangini Marbles Private Limited
226.	013910	M/s. Prathana Tyres Private Limited
227.	013935	M/s. Pabuji Marble and Granite Private Limited
228.	013952	M/s. Ashu-Vibha Trading Company Private Limited
229.	013959	M/s. Dr. B. L. Sharma Pharmacy Private Limited
230.	013964	M/s. Himani Marbles Private Limited
231.	013976	M/s. Chhinn Masta Farms and Colcnisers Private Limited

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Raera Communications Private Limited

Ahmedabad-380013, the 15th April 2010

No. 115/1230—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Raera Communications Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. United Corporate Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 15th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00264/1260—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. United Corporate Services Private Limited unless cause

is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA
Deputy Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jivandip Construction Private Limited

Ahmedabad-380013, the 15th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00270/1263—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jivandip Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA
Deputy Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Megha Seeds Private Limited

Ahmedabad-380013, the 15th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00257/1266—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Megha Seeds Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

RAMDAS GUPTA
Deputy Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tirupati Skyscrapers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00184/1272—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tirupati Skyscrapers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Intraaction Computers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00208/
1275—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Intraaction Computers Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sidhkay Consultants Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00199/
1278—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Sidhkay Consultants Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Effective Outsourcing Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00202/
1281—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Effective Outsourcing Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Purvi Infrastructure Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00147/
1284—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Purvi Infrastructure Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Purvi Port Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00138/
1287—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Purvi Port Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Abhimukt Financial Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00196/
1290—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Abhimukt Financial Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arke Renewable Energy Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00154/
1293—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Arke Renewable Energy Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Impulsive Softsolutions Private Limited

Ahmedabad-380013, the 16th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00205/
1296—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Impulsive Softsolutions Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE
Assistant Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Apple Cargo Private Limited

Chennai-600034, the 15th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00055—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Apple Cargo
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will
be struck off the register and the said company will be
dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jade Educational Consultants Private Limited

Chennai-600034, the 15th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00049—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Jade
Educational Consultants Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. AVM Media Marketing Private Limited

Chennai-600034, the 15th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00104—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. AVM Media

Marketing Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lekha Teletowers Private Limited

Chennai-600034, the 15th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00117—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Lekha
Teletowers Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Design Quartet Consultants Private Limited

Chennai-600034, the 15th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00257—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Design
Quartet Consultants Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Devar Petro Products Private Limited

Chennai-600034, the 15th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00261—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Devar Petro
Products Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Covanta India Operating Private Limited
Chennai-600034, the 15th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00276—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Covanta India Operating Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S.M. Fashions Private Limited
Chennai-600034, the 15th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00244—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S. M. Fashions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. TJT Agency Assist Private Limited
Chennai-600034, the 15th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00266—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. TJT Agency Assist Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Adornis Furniture Private Limited
Chennai-600034, the 16th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00041—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Adornis

Furniture Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Edu Consult Private Limited
Chennai-600034, the 16th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00062—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Edu Consult Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Farida Management Services Private Limited
Chennai-600034, the 16th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00030—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Farida Management Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Crescent Star Advertising Private Limited
Chennai-600034, the 16th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00033—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Crescent Star Advertising Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands